



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt.ofHaryana

No. 153-2023/Ext.] CHANDIGARH, SATURDAY, AUGUST 26, 2023 (BHADRA 4, 1945 SAKA)

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 26 अगस्त, 2023

**संख्या 19/45/2023-6क1.**—हरियाणा नगर निगम वार्ड परिसीमन नियम, 1994 के नियम 9 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस निमित्त पूर्व में जारी सभी आदेशों/अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा नीचे दी गई अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट नगर निगम, गुरुग्राम, जिला गुरुग्राम के वार्डों के परिसीमन हेतु ऐसे व्यक्तियों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते हैं, जिनको इससे प्रभावित होने की सम्भावना है।

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से दस दिन की अवधि की समाप्ति पर या इसके पश्चात् राज्य सरकार अधिसूचना प्रारूप पर, ऐसे आक्षेपों अथवा सुझावों, यदि कोई हो, सहित जो आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग/निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा उपायुक्त, गुरुग्राम के माध्यम से किसी व्यक्ति से अधिसूचना प्रारूप के सम्बन्ध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किए जाएँ, विचार करेगी :-

### सीमाओं की अनुसूची

**वार्ड नं० 01 :-** बिन्दु (28.514 77.0931) जो दिल्ली-हरियाणा सीमा पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-48 पर स्थित है तत्पश्चात् पूर्व-दक्षिण की ओर दिल्ली-हरियाणा सीमा के साथ गाँव नाथुपुर की राजस्व सीमा के उत्तरी सिरे पर बिन्दु (28.4959 77.1211) तक, तत्पश्चात् दक्षिण की ओर गाँव नाथुपुर की पूर्वी राजस्व सीमा के साथ व गाँव सिकंदरपुर घोसी की पूर्वी राजस्व सीमा के किनारे अरावली हिल्स सिकंदरपुर घोसी बिन्दु (28.4711, 77.1136) तक जो सिकंदरपुर घोसी की राजस्व सीमा के दक्षिण-पूर्व कोने पर मिलता है, तत्पश्चात् उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ते हुए डी0 एल0 एफ0 फेस-1 ब्लॉक जी की उत्तरी सीमा के साथ सिल्वर ओक अपार्टमेंट की उत्तर-पश्चिमी सीमा व लेन-जी 17 तक, तत्पश्चात् कुसुम मार्ग से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए, कुतुब प्लाजा के सामने बिन्दु (28.4725 77.1028) तक जोकि गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड पर स्थित है तत्पश्चात् पश्चिम में गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड के साथ बिन्दु (28.4787, 77.094) तक जहाँ राघवेंद्र मार्ग (गोल्फ कोर्स रोड) और गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड चौराहे पर प्रतिष्ठित होता है तत्पश्चात् राघवेंद्र मार्ग पर उत्तर-पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ते हुए रैपिड मेट्रो स्टेशन सिकंदरपुर घोसी बिन्दु (28.4816, 77.0944) तक, तत्पश्चात् एमजी रोड पर उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुए बिन्दु (28.4806, 77.0893) तक, तत्पश्चात् ब्लॉक-जे और क्यू की सीमा के साथ उत्तर-पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हुए डीएलएफ फेस-2 बिन्दु (28.4874 77.0933) तक, नजदीक रैपिड मेट्रो स्टेशन डीएलएफ फेस-2, तत्पश्चात् राघवेंद्र मार्ग रोड पर उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुए बेल्वेडियर टावर्स की उत्तरी-पश्चिम सीमा के साथ बिन्दु (28.4919, 77.0909), तत्पश्चात् राघवेंद्र मार्ग पर उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुए साइबर हब के साथ शंकर चौक

(2649)

बिन्दु (28.4983 77.0889) तक, तत्पश्चात् राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-48 के साथ उत्तर-पूर्व में नगर निगम गुरुग्राम और दिल्ली-हरियाणा सीमा के बिन्दु (28.514, 77.0931) जोकि प्रारम्भिक बिंदु है। इस वार्ड में नाथुपुर, नाथुपुर पार्क, डीएलएफ फेज-3, नेशनल मीडिया सेंटर, एंबियंस आइलैंड, गार्डन एस्टेट, डीएलएफ कॉर्पोरेट पार्क, गांव सिकंदरपुर घोसी, अरावली हिल्स सिकंदरपुर घोसी, ग्लोबल बिजनेस पार्क, डी.एल.एफ. फेस-2 और बेल्वेडियर टावर्स आदि के ब्लॉक-जे और क्यू शामिल हैं।

**वार्ड नं० 02 :-** बिन्दु 28.514 77.0931 जो दिल्ली-हरियाणा सीमा पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-48 पर स्थित है तत्पश्चात् राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-48 पर जयपुर की ओर बढ़ते हुए उस बिन्दु तक जहां शंकर चौक (28.4983, 77.0889), तत्पश्चात् राघवेंद्र मार्ग पर दक्षिण-पूर्व की ओर बढ़ते हुए बिन्दु 28.4919, 77.0909 तक, तत्पश्चात् उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुए बेल्वेडियर टावर्स की उत्तरी-पश्चिम सीमा के साथ बिन्दु 28.4874, 77.0933 तक नजदीक रैपिड मेट्रो स्टेशन डीएलएफ फेस-2, तत्पश्चात् डीएलएफ फेस-2 के ब्लॉक-जे और क्यू की सीमा के साथ दक्षिण-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुए बिन्दु 28.4806, 77.0893 तक, तत्पश्चात् एमजी रोड पर दक्षिण-पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हुए रैपिड मेट्रो स्टेशन सिकंदरपुर घोसी बिन्दु (28.4816, 77.0944) तक, तत्पश्चात् गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड पर दक्षिण-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुए, जो गांव सिकंदरपुर घोसी की दक्षिणी राजस्व सीमा पर जुड़ता है यानी ब्रिस्टल होटल के पीछे से बिन्दु (28.4787, 77.094) तक, तत्पश्चात् गाँव सिकंदरपुर घोसी की दक्षिणी राजस्व सीमा के साथ एक ही रेखा पर निरंतरता के साथ बढ़ते हुए और गाँव सरहोल की दक्षिणी राजस्व सीमा बिन्दु (28.4785 77.0809 तक, तत्पश्चात् उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ते हुए एमजी रोड मेट्रो स्टेशन बिन्दु (28.4790 77.0788) तक, तत्पश्चात् बेवर्ली पार्क-1 (कॉडोमिनियम कॉम्प्लेक्स) के पीछे से आगे बढ़ते हुए एम.जी. सड़क बिन्दु (28.4786, 77.0739), तत्पश्चात् डेल्टा स्क्वायर बिल्डिंग के पीछे से गुजरते हुए और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 को पार करके बिन्दु (28.4793 77.07075) तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में सेक्टर 17/18 की विभाजित सड़क के साथ बिन्दु (28.4891, 77.0559) तक, तत्पश्चात् पुरानी दिल्ली रोड के साथ उत्तर-पूर्व की ओर बढ़ते हुए बिन्दु (28.5112, 77.0744) जोकि हनुमान मंदिर चौक तक, फिर पश्चिम-उत्तर की ओर बढ़ते हुए गाँव डुण्डाहेड़ा की फिरनी के साथ सेक्टर-21 के पूर्वी कोने और सूर्या विहार के पश्चिमी कोने बिन्दु (28.5188, 77.0749), तत्पश्चात् सूर्या विहार और दिल्ली-हरियाणा सीमा की उत्तरी सीमा के साथ पूर्व की ओर बढ़ते हुए आईओसी पेट्रोल पंप के पास बिन्दु (28.5182, 77.0806) पुरानी दिल्ली रोड तक, तत्पश्चात् दक्षिणी-पूर्वी दिशा में उद्योग विहार, फेस -1 और 3 की सीमा के साथ-साथ आगे बढ़ते हुए प्रारम्भिक बिन्दु (28.514, 77.0931) तक। इस वार्ड में डीएलएफ साइबर हब, डीएलएफसिटी फेज-2 (पार्ट), मॉल रोड एरिया, बेवर्ली पार्क-1 (कॉडोमिनियम कॉम्प्लेक्स), गांव सरहोल, मारुति उद्योग, उद्योग विहार फेज-1 से 5, गाँव डून्डहेड़ा और सूर्या विहार आदि शामिल हैं।

**वार्ड नं० 03 :-** बिंदु (28.503, 77.0574) शक्ति मंदिर मोड़ से प्रारंभ होकर उत्तर-पूर्व दिशा की ओर बिन्दु (28.5094, 77.0628) तक, तत्पश्चात् पश्चिम की ओर बढ़ते हुए और फिर उत्तर की ओर बिन्दु (28.5122, 77.0613) तक जहां यह हरियाणा-दिल्ली बॉर्डर के साथ गांव कार्टरपुरी की उत्तरी राजस्व सीमा के साथ बढ़ते हुए सेक्टर-21 के पूर्वी कोने और सूर्या विहार के पश्चिमी कोने बिन्दु (28.5188 77.0749) से मिलता है, तत्पश्चात् गाँव डून्डाहेड़ा की फिरनी के साथ दक्षिण-पश्चिम की ओर बढ़ते हुए बिन्दु (28.5112, 77.0744) तक हनुमान मंदिर चौक पुरानी दिल्ली रोड तक, तत्पश्चात् पुरानी दिल्ली रोड के साथ दक्षिणी-पश्चिमी की ओर बढ़ते हुए बिंदु (28.4937, 77.0598) मारुति कंपनी गेट नं. 2 जो गांव इनायतपुर की राजस्व सीमा की उत्तर-पूर्वी सीमा पर स्थित है तक, तत्पश्चात् गांव इनायतपुर की उत्तरी राजस्व सीमा और पूर्व दिशा में आगे बढ़ते हुए और गांव कार्टरपुरी और गांव चोमा की दक्षिणी राजस्व सीमा पर बढ़ते हुए गुडगांव, चौमा और कार्टरपुरी गांवों के राजस्व सीमा जहां यह त्रि-जंक्शन से मिलता है बिन्दु (28.4936, 77.0316) तक, तत्पश्चात् इस बिंदु से उत्तर की ओर बढ़ते हुए गौशाला रोड के साथ बिन्दु (28.5021, 77.0289) तक, जो कृष्णा चौक है, तत्पश्चात् पूर्व की ओर बढ़ते हुए बिन्दु (28.5038, 77.0363) तक सर्व हरियाणा ग्रामिण बैंक के पास, तत्पश्चात् उत्तर-पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हुए कार्टरपुरी गाँव की आबादी सीमा व पालम विहार विस्तार की उत्तरी सीमा के साथ-साथ प्रारम्भिक बिन्दु (28.503, 77.0574) शक्ति मंदिर मोड़ तक। इस वार्ड में गांव कार्टरपुरी, नोबल एन्क्लेव, गुडगांव वन अपार्टमेंट, पालम विहार एक्स्टेंशन, गांव मोलाहेड़ा, सेक्टर -22 पॉकेट-ए, सेक्टर -22 पॉकेट बी, चिप्पी कॉलोनी और सेक्टर-21 आदि शामिल हैं।

**वार्ड नं० 04 :-** बिन्दु 28.5254, 77.0417 से शुरू होकर जो राज्य की सीमाओं पर दिल्ली और गुरुग्राम को जोड़ने वाली रेलवे लाइन के साथ स्थित है, तत्पश्चात् गांव चौमा और कार्टरपुरी के राजस्व सीमा व दिल्ली-हरियाणा सीमा के साथ पूर्व की ओर बढ़ते हुए बिन्दु (28.5122, 77.0613) तक, तत्पश्चात् दक्षिण-पूर्व दिशा के साथ बिन्दु (28.509475, 77.062816) तक, तत्पश्चात् दक्षिण-पश्चिम की ओर बढ़ते हुए श्री शक्ति मंदिर मार्ग के साथ बिन्दु (28.503, 77.0574) तक जहां यह मेजर सुशील एमा मार्ग को काटता है, और तत्पश्चात् पश्चिम की ओर बढ़ते हुए पालम विहार विस्तार की उत्तरी सीमा और गांव कार्टरपुरी की आबादी सीमा के साथ बिन्दु (28.5038, 77.0363) तक है, सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक के पास, तत्पश्चात् पश्चिम की ओर बढ़ते हुए बिन्दु (28.5021, 77.0289) तक, जो कृष्णा चौक है, तत्पश्चात् रेजांगला रोड के साथ दक्षिण की तरफ बढ़ते हुए बिन्दु (28.4936, 77.020) तक है जो कि गांव गुडगांव की राजस्व सीमा के साथ रेजांगला रोड प्रतिच्छेद होता है, तत्पश्चात् इस सीमा के साथ आगे बढ़ते हुए बिन्दु (28.4952, 77.01620) तक, तत्पश्चात् रेलवे लाइन पर उत्तर-पूर्व में रेलवे लाइन के साथ दिल्ली की ओर बढ़ते हुए प्रारम्भिक बिन्दु (28.5254, 77.0417) तक। इस वार्ड में सेक्टर-23, पालम विहार सेक्टर- 1, 2, 3 और गांव चोमा खेड़ा, सेक्टर -23 ए आदि शामिल हैं।

**वार्ड नं० 05 :-** प्रारम्भिक बिन्दु 28.5254, 77.0417 जो दिल्ली और गुरुग्राम को जोड़ने वाली रेलवे लाइन पर स्थित है, तत्पश्चात् रेलवे लाइन के साथ दक्षिण की ओर आगे बढ़ते हुए बिन्दु 28.4952, 77.01620 तक, तत्पश्चात् सराय अलावार्दी और

पवाला खुसरपुर गांवों की दक्षिणी राजस्व सीमा के बिन्दु 28.4978, 77.0052 तक, जोकि उत्तरी पेरिफेरल रोड (द्वारका एक्सप्रेसवे) पर स्थित है, तत्पश्चात् उत्तरी पेरिफेरल रोड (द्वारका एक्सप्रेसवे) के साथ उत्तर की ओर बढ़ते हुए बिन्दु 28.5123, 77.0179 तक, जोकि सेक्टर-109/112 विभाजित सड़क द्वारा प्रतिच्छेद करते हुए, तत्पश्चात् पश्चिम की ओर बढ़ते हुए विभाजन सड़क सेक्टर-109/112 के साथ-साथ बिन्दु 28.5174, 77.013 तक, जहां यह दिल्ली-हरियाणा राज्य सीमा से मिलती है, तत्पश्चात् दिल्ली-हरियाणा राज्य सीमा के साथ उत्तरी-पूर्वी दिशा में आगे बढ़ते हुए जोकि गाँव बजघेड़ा की उत्तरी सीमा पर जाकर मिलती है और उत्तर-पूर्वी गाँव बजघेड़ा और चौमा की राजस्व सीमा पर स्थित बिन्दु प्रारम्भिक बिन्दु 28.5254, 77.0417 तक। इस वार्ड में सेक्टर-109, सेक्टर-110, सेक्टर-110ए, सेक्टर-111, सेक्टर-112, सेक्टर-113, सेक्टर-114, सेक्टर-115, न्यू पालम विहार फेज-1, 2, 3, निहाल कॉलोनी, गाँव सराय अल्लावर्दी और गाँव बजघेड़ा आदि शामिल हैं।

**वार्ड नं० 06 :-** प्रारम्भिक बिन्दु 28.5174, 77.013 जोकि दिल्ली-हरियाणा राज्य सीमा पर मिलता है जोकि सेक्टर 109/112 के विभाजित सड़क पर स्थित है, तत्पश्चात् दक्षिण-पूर्वी दिशा में 109/112 के विभाजित सड़क के साथ आगे बढ़ते हुए उत्तरी परिधीय सड़क (द्वारका एक्सप्रेसवे) के बिन्दु (28.5123, 77.0179) तक तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में उत्तरी परिधीय सड़क (द्वारका एक्सप्रेसवे) के साथ-साथ आगे बढ़ते हुए बिन्दु 28.4978, 77.0052 तक, तत्पश्चात् गाँव दौलताबाद की पूर्वी राजस्व सीमा की ओर बढ़ते हुए, उत्तरी परिधीय सड़क (द्वारका एक्सप्रेसवे), जहाँ ग्राम धनकोट की दक्षिणी राजस्व सीमा को उत्तरी परिधीय सड़क (द्वारका एक्सप्रेसवे) को अनुच्छेद करती है, बिन्दु (28.4523, 76.961) जोकि सेक्टर-99/99 ए के विभाजित रोड पर मिलता है, तत्पश्चात् उत्तरी दिशा में बढ़ते हुए फरुखनगर-गुरुग्राम-झज्जर रोड बिन्दु (28.4723, 76.9497) पर पहुँचकर, तत्पश्चात् इस रोड पर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए बिन्दु जोकि ग्राम धनकोट की पश्चिमी राजस्व सीमा पर मिलता है, तत्पश्चात् गाँव धनकोट की राजस्व सीमा के साथ, दिल्ली -हरियाणा राजस्व सीमा के साथ-साथ और गाँव धनकोट, खेड़की माजरा, दौलताबाद और धर्मपुर की पश्चिमी राजस्व सीमा के साथ-साथ गाँव धर्मपुर की उत्तरी और पूर्वी की राजस्व सीमा पर स्थित बिन्दु (28.5212, 76.9785) तक, तत्पश्चात् गाँव बाबूपुर की उत्तर-पूर्वी राजस्व सीमा पर, दिल्ली-हरियाणा राज्य सीमा के साथ जोकि प्रारम्भिक बिन्दु 28.5174, 77.013 पर मिलती है। इस वार्ड में सेक्टर-102, सेक्टर-102ए, सेक्टर-103, सेक्टर-106, सेक्टर-107, सेक्टर-108, सेक्टर-109, गाँव दौलताबाद, गाँव पवालाखुसरपुर, गाँव खेड़की माजरा, गाँव मोहम्मदहेड़ी, गाँव धनकोट, गाँव बाबूपुर और गाँव धर्मपुर आदि शामिल हैं।

**वार्ड नं० 07 :-** प्रारम्भिक बिन्दु 28.4830, 77.0056 सूरत नगर फेस-1 की दक्षिणी सीमा से शुरू होकर रेलवे लाईन के साथ गुरुग्राम की ओर बढ़ते हुए बिन्दु 28.4674, 76.9882 ड्रोनकुंज सीजीएचएस अपार्टमेंट तक, तत्पश्चात् सेक्टर-9 और 9-बी की विभाजन सड़क के साथ-साथ दक्षिणी-पूर्वी दिशा की ओर बढ़ते हुए के बिन्दु 28.4575, 76.9904 तक, तत्पश्चात् पश्चिम दिशा में गुरुग्राम-फरुखनगर रोड पर आगे बढ़ते हुए जोकि गाँव बसई की फिरनी के बिन्दु (28.4577, 76.9848) पर मिलता है, तत्पश्चात् बसई एन्क्लेव-पार्ट-1 और 2 की दक्षिणी सीमा पर आगे बढ़ते हुए और कादीपुर औद्योगिक क्षेत्र के बिन्दु 28.446, 76.9917 तक, जहाँ गुरुग्राम-पटौदी रोड से मिलता है, तत्पश्चात् दक्षिण-पश्चिम दिशा में पटौदी रोड पर आगे बढ़ते हुए बिन्दु 28.4427, 76.9847 तक, तत्पश्चात् दक्षिण-पूर्वी दिशा में आगे बढ़ते हुए बिन्दु 28.4347, 76.9919 तक सरस्वती एन्क्लेव की सीमा के साथ, तत्पश्चात् दक्षिण दिशा में बादशाहपुर ड्रेन के साथ आगे बढ़ते हुए, पश्चिम और उत्तर पश्चिमी दिशा में गाँव गाड़ोलीखुर्द की फिरनी के साथ। तत्पश्चात् दक्षिणी-पश्चिमी दिशा में पटौदी रोड के साथ आगे बढ़ते हुए बिन्दु 28.4385, 76.976 तक, जोकि पटौदी-गुरुग्राम रोड और उत्तरी परिधि रोड प्रतिच्छेद करता है, तत्पश्चात् उत्तर दिशा में उत्तरी परिधि रोड के साथ जोकि गाँव धनकोट की दक्षिणी राजस्व सीमा उत्तरी पेरिफेरल रोड (द्वारका एक्सप्रेसवे) के बिन्दु (28.4523, 76.961) को काटती है जहाँ यह सेक्टर-99/99ए विभाजन सड़क से जुड़ता है, तत्पश्चात् उत्तरी पेरिफेरल रोड के साथ उत्तर दिशा में आगे बढ़ते हुए, तत्पश्चात् गाँव धनवापुर की उत्तरी राजस्व सीमा के साथ पूर्वी दिशा में आगे बढ़ते हुए बिन्दु 28.4857, 76.9921 तक, जोकि धनवापुर-बजघेड़ा रोड पर स्थित है, तत्पश्चात् पूर्वी दिशा में धनवापुर-बजघेड़ा रोड के साथ-साथ आगे बढ़ते हुए बिन्दु 28.4634, 77.9986 तक, तत्पश्चात् सूरत नगर फेस-1 की दक्षिणी सीमा पर आगे बढ़ते हुए प्रारम्भिक बिन्दु 28.4830, 77.0056 तक इस वार्ड में सूरत नगर फेस-2, राम विहार, गाँव धनवापुर, गाँव बसई, गाँव गड़ोलीखुर्द, गाँव गड़ोली कलां, सेक्टर -9 बी, सेक्टर -37 बी, सेक्टर -37 सी, सेक्टर -37 डी, सेक्टर -100, 101, 104 आदि शामिल हैं।

**वार्ड नं० 8 :-** प्रारम्भिक बिन्दु 28.4575 76.9904, जोकि बसई चौक पर स्थित है, तत्पश्चात् उत्तरी दिशा में शहीद सुखबीर यादव मार्ग के साथ-साथ आगे बढ़ते हुए बिन्दु 28.4674, 76.9882 जोकि गुरुग्राम-रेवाड़ी रेलवे लाइन पर स्थित है, तत्पश्चात् उत्तर-पूर्वी दिशा में रेलवे लाईन के साथ आगे बढ़ते हुए और सेक्टर-9ए के उत्तर-पश्चिमी सीमा के साथ आगे बढ़ते हुए बिन्दु 8.4748, 76.9989 तक, तत्पश्चात् सूर्या विहार और सेक्टर-9ए की सीमा के साथ दक्षिण-पूर्वी दिशा में आगे बढ़ते हुए, जोकि सेक्टर-9/9ए के सेक्टर विभाजित रोड पर बिन्दु 28.4676, 77.0013 से गुजरते हुए, तत्पश्चात् सेक्टर-9 की उत्तर-पूर्वी सीमा, फिरोज गांधी कॉलोनी-2 की दक्षिणी-पूर्वी सीमा, सेक्टर-7 हाउसिंग बोर्ड, ज्योति पार्क, देवीलाल कॉलोनी और रवि नगर 28.457, 77.0079 तक, जोकि एन्के फैक्ट्री के पास स्थित है, तत्पश्चात् दक्षिणी-पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ते हुए बिन्दु 28.4573, 76.9964 तक, तत्पश्चात् सेक्टर-10 के सरकारी अस्पताल की दक्षिणी सीमा के साथ आगे बढ़ते हुए, अल्पाइन कॉन्वेंट स्कूल की उत्तरी सीमा के साथ आगे बढ़ते हुए जोकि प्रारम्भिक बिन्दु 28.4575 76.9904 पर जाकर मिलती है। इस

वार्ड में सेक्टर-9, सेक्टर-9 ए, भवानी एन्क्लेव, अंबेडकर नगर, देवी लाल कॉलोनी, रवि नगर, विश्वकर्मा कॉलोनी आदि शामिल हैं।

**वार्ड नं० 9 :-** प्रारम्भिक बिन्दु 28.457 77.0079 जोकि एन्के फैक्ट्री के पास स्थित है, तत्पश्चात कृष्णा नगर सेक्टर-10 की दक्षिणी-पूर्वी सीमा की ओर बढ़ते हुए गुरुग्राम-बादशाहपुर की निर्वाचन क्षेत्र सीमा के साथ आगे बढ़ते हुए बिन्दु 28.4518 77.0066 जोकि रोटरी क्लब ब्लड बैंक के पास पटौदी रोड पर स्थित है, तत्पश्चात पटौदी रोड के साथ दक्षिणी-पश्चिमी दिशा की ओर बढ़ते हुए गाँव कादीपुर की फिरनी के बिन्दु 28.448280, 76.997271 तक, जोकि कैप्टन उमंग भारद्वाज चौक है, तत्पश्चात शहीद सुखबीर सिंह यादव मार्ग के साथ दक्षिण-पूर्वी दिशा में आगे बढ़ते हुए बिंदु 28.4359, 77.0102 तक, जोकि एकलव्या मार्ग (हीरो हॉंडा चौक) है। तत्पश्चात दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग-48 के साथ दक्षिणी दिशा में आगे बढ़ते हुए बिन्दु 28.4244, 77.0005 तक, तत्पश्चात गाँव खांडसा की दक्षिणी राजस्व सीमा के साथ आगे बढ़ते हुए बिन्दु 28.4306, 76.9884 तक, तत्पश्चात पेस सिटी की उत्तरी सीमा के साथ और सरस्वती एन्क्लेव की दक्षिणी सीमा के साथ बिन्दु 28.4427, 76.9847 तक, तत्पश्चात पटौदी रोड के साथ उत्तरी-पूर्वी दिशा में आगे बढ़ते हुए बिन्दु 28.446, 76.9917 जोकि कादीपुर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है। तत्पश्चात कादीपुर औद्योगिक क्षेत्र और बसई एन्क्लेव-पार्ट- 1 व 2 की दक्षिणी सीमा के साथ आगे बढ़ते हुए बिन्दु 28.4577, 76.9848 तक ( गांव बसई की फिरनी)। तत्पश्चात गुरुग्राम-फरुखनगर रोड के साथ उत्तर की ओर बढ़ते हुए बिन्दु 28.4575, 76.9904 तक, तत्पश्चात अल्पाइन कॉन्वेंट स्कूल की उत्तरी सीमा के साथ आगे बढ़ते हुए बिन्दु 28.4573, 76.9964 तक, जोकि सैक्टर-10 का सरकारी अस्पताल है, तत्पश्चात बसई रोड के साथ दक्षिण-पूर्वी दिशा में आगे बढ़ते हुए प्रारम्भिक बिन्दु 28.457 77.0079 तक। इस वार्ड में कृष्णा नगर, सेक्टर-10, विकास नगर, बसई एन्क्लेव-1 व 2, कादीपुर एन्क्लेव, कादीपुर औद्योगिक क्षेत्र, सरस्वती एन्क्लेव, पेस सिटी-2, उद्योग विहार फेस-6 गाँव खांडसा आदि शामिल हैं।

**वार्ड नं० 10 :-** प्रारम्भिक बिन्दु 28.4518, 77.0066 जोकि रोटरी क्लब ब्लड बैंक के पास पटौदी रोड पर स्थित है, तत्पश्चात गांधी नगर की दक्षिण-पश्चिमी सीमा और शक्ति पार्क व हरि नगर की उत्तर-पूर्वी सीमा के साथ आगे बढ़ते हुए बिन्दु 28.4441, 77.0171 तक, तत्पश्चात राष्ट्रीय राजमार्ग-48 के साथ जयपुर की ओर आगे बढ़ते हुए बिन्दु 28.4359, 77.0102 जोकि कि एकलव्या चौक (हीरो हॉंडा चौक) तक, तत्पश्चात उत्तर-पश्चिम दिशा में शहीद सुखबीर सिंह यादव मार्ग पर आगे बढ़ते हुए बिन्दु 28.448280, 76.997271 तक, जोकि कप्तान उमंग भारद्वाज चौक है। तत्पश्चात उत्तर-पूर्वी दिशा में गाँव कादीपुर की फिरनी और पटौदी रोड के साथ बिन्दु 28.4518, 77.0066 तक जोकि प्रारम्भिक बिन्दु है। इस वार्ड में गाँव कादीपुर, शक्ति पार्क, हरि नगर, पेस सिटी- 1, सेक्टर -10 ए, पुराना औद्योगिक क्षेत्र खांडसा रोड आदि शामिल हैं।

**वार्ड नं० 11 :-** राजीव चौक से प्रारम्भिक बिंदु (28.4456, 77.0336), तत्पश्चात दक्षिण की ओर सोहना रोड पर बढ़ते हुए गांव इस्लामपुर की उत्तरी -पश्चिमी सीमा के साथ सुभाष चौक बिन्दु (28.4287, 77.037) तक, तत्पश्चात सेक्टर -38/47 की विभाजित सड़क के साथ उत्तर-पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हुए बख्तावर चौक बिन्दु (28.4347, 77.0493) तक, तत्पश्चात विकास मार्ग दक्षिणी-पूर्वी दिशा की ओर बढ़ते हुए सेक्टर -46/47 की विभाजन सड़क के साथ बिन्दु (28.4274, 77.0581) तक, तत्पश्चात मेफील्ड गार्डन की उत्तरी-पश्चिमी सीमा के साथ बढ़ते हुए बिंदु 28.4247, 77.0553 तक, तत्पश्चात सेक्टर 47/49 की विभाजित सड़क के साथ मालिबू टाउन की दक्षिणी सीमा की ओर बढ़ते हुए और साउथ सिटी-2 व ब्लॉक-ए1, की सीमा को पार करते हुए बिन्दु 28.4172, 77.0404 सेक्टर 47/49 रोड के चौराहे (महाशय हंसराम मार्ग)तक, तत्पश्चात सोहना रोड पर बिंदु 28.4134, 77.0415 तक, तत्पश्चात उप्पल साउथेंड की उत्तर-पूर्व सीमा के साथ दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते हुए, गाँव टिकरी की राजस्व सीमा के साथ-साथ और बादशाहपुर ड्रेन को पार करते हुए बिन्दु 28.4264, 77.0276 (नेताजी सुभाष मार्ग) तक, तत्पश्चात नेताजी सुभाष मार्ग रोड के साथ पश्चिमी-उत्तरी की ओर बढ़ते हुए बिन्दु 28.4359, 77.0102 तक, जो कि एकलव्या मार्ग (हीरो हॉंडा चौक) है, तत्पश्चात राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या -48 पर उत्तर-पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हुए बिन्दु 28.4441, 77.0171 तक, तत्पश्चात गुरुग्राम-बादशाहपुर की विधानसभा सीमा के साथ राजीव कॉलोनी की दक्षिणी-पूर्वी सीमा की ओर बढ़ते हुए हंस एन्क्लेव के उत्तर-पश्चिम कोने बिन्दु (28.4481, 77.0243)तक, तत्पश्चात राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-48 पर उत्तर-पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हुए राजीव चौक (28.4456, 77.0336), जोकि प्रारम्भिक बिंदु है तक। इस वार्ड में हंस एन्क्लेव, नाहरपुर रूपा, नितिन विहार, शिव कॉलोनी, वायरलेस स्टेशन झाड़सा, इन्फोसिटी- 2, गांव टिकरी, मालिबू टाउन, सेक्टर -47, सेक्टर -33 आदि शामिल हैं।

**वार्ड नं० 12 :-** प्रारम्भिक बिन्दु 28.4456, 77.0336, जो कि राजीव चौक है, तत्पश्चात राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-48 पर उत्तर-पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हुए बिन्दु 28.4519, 77.0419 तक, जो झाड़सा चौक है, तत्पश्चात दक्षिण-पूर्व दिशा की ओर प्रेम-पुरी कालोनी की बाहरी सीमा व सेक्टर-32 ए के साथ गुजरने वाली सड़क की ओर बढ़ते हुए, तथा सेक्टर-31/40 की विभाजित सड़क पर झाड़सा रोड के साथ मोहयाल कॉलोनी की उत्तरी-पूर्वी सीमा के साथ बिन्दु 28.444, 77.0583 तक, जहां यह नेताजी सुभाष मार्ग को काटती है, तत्पश्चात सेक्टर 39/46 की विभाजित सड़क की ओर बढ़ते हुए बिन्दु 28.4287, 77.037 तक, जो कि सुभाष चौक है, तत्पश्चात गांव इस्लामपुर की पश्चिमी-उत्तरी सीमा के साथ- साथ सोहना रोड की ओर आगे बढ़ते हुए प्रारम्भिक बिन्दु 228.4456, 77.0336 तक। इस वार्ड में सेक्टर -32, गांव झाड़सा, मोहयाल कॉलोनी, प्रेम पुरी झाड़सा, मेडीसिटी, सेक्टर-38, सेक्टर-39, गांव इस्लामपुर आदि शामिल हैं।

**वार्ड नं० 13 :-**प्रारम्भिक बिन्दु राजीव चौक से (28.4456, 77.0336), तत्पश्चात सिविल लाइन्स रोड पर उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ते हुए बिन्दु (28.4515, 77.0309) तक न्यू पी0 डब्ल्यू0 डी0 रेस्ट हाउस के पास, तत्पश्चात गुरुग्राम और बादशाहपुर की निर्वाचन क्षेत्र की सीमा के साथ-साथ आगे बढ़ते हुए बांध रोड के साथ, सेक्टर -15 के उत्तर-पूर्व कोने से आगे

बढ़ते हुए सेक्टर-15 पार्ट 2 की सीमा के साथ दक्षिण-पूर्व की ओर बढ़ते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-48 की ओर बिन्दु (28.4598, 77.0495) तक यूनिटेक सिग्नेचर टॉवर-2 के पास, तत्पश्चात दक्षिण-पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हुए सेक्टर -31 की सीमा के साथ और बादशाहपुर की निर्वाचन क्षेत्र की सीमा के साथ साउथ सिटी-1 बिन्दु (28.4568, 77.0704) तक, तत्पश्चात आर्य समाज मार्ग के साथ दक्षिण-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है बिन्दु (28.4501, 77.0642) तक, तत्पश्चात ग्रीनवुड सिटी की कॉलोनी की सीमा के साथ दक्षिण-पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हुए बिन्दु (28.4416, 77.056) तक, तत्पश्चात आर्य समाज रोड पर उत्तर-पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हुए बिन्दु (28.444 तक, 77.0583) यूनिटेक साइबर पार्क के पास, तत्पश्चात सेक्टर -39/40 विभाजन सड़क के साथ उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुए मोहयाल कॉलोनी की सीमा के साथ-साथ बिन्दु (28.4492, 77.0509) तक (रानी अवंती बाई मार्ग), तत्पश्चात झाड़सा गांव की सीमा के साथ दक्षिण-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुए, प्रेमपुरी झाड़सा बिन्दु (28.4519, 77.0419) तक जो झाड़सा चौक है, तत्पश्चात राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या -48 पर दक्षिण-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुए प्रारंभिक बिन्दु (28.4456, 77.0336) तक। इस वार्ड में सेक्टर-15 पार्ट-1 व 2, किर्ती नगर, सेक्टर-31, सेक्टर-32ए, सेक्टर-40, ग्रीनवुड सिटी, साउथ सिटी-1 का हिस्सा आदि शामिल हैं।

**वार्ड नं० 14 :-** प्रारंभिक बिन्दु (28.4347, 77.0493) बख्तावर चौक से होकर, तत्पश्चात नेताजी सुभाष चंद मार्ग के साथ उत्तर-पूर्व की ओर बढ़ते हुए बिन्दु (28.4416, 77.056) तक, तत्पश्चात दक्षिण-पूर्व की ओर ग्रीनवुड सिटी की सीमा के साथ और सेक्टर 45/46 की विभाजित सड़क के साथ उत्तर-पूर्व की ओर बढ़ते हुए बिन्दु (28.437, 77.0673) तक, तत्पश्चात इन्द्रा कॉलोनी- 1 व 2 की सीमा के साथ उत्तर-पूर्व की ओर बढ़ते हुए बिन्दु (28.4305, 77.0711) तक, तत्पश्चात गुरुग्राम और बादशाहपुर की निर्वाचन क्षेत्र की सीमा के साथ-साथ दक्षिण-पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हुए बिन्दु (28.4118, 77.0838) तक, जहां यह घाटा, तिगरा और नंगली उमरपुर गांवों के राजस्व सीमा के त्रि-जंक्शन से मिलता है, तत्पश्चात तिगरा गांव की राजस्व सीमा की सीमा के साथ उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुए गोल्फ-कोर्स रोड बिन्दु (28.4124, 77.0746) तक, तत्पश्चात मेफील्ड गार्डन की पश्चिमी सीमा के साथ उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुए, सेक्टर -50 तक बिन्दु (28.4218, 77.054) तत्पश्चात मेफील्ड गार्डन सेक्टर-47 की सीमा के साथ-साथ आगे बढ़ते हुए विकास मार्ग के टी-पॉइंट बिन्दु (28.4274, 77.0581) तक, तत्पश्चात सेक्टर 46/47 की विभाजित सड़क पर उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुए प्रारंभिक बिन्दु (28.4347, 77.0493) तक। इस वार्ड में जल विहार कॉलोनी, सेक्टर-46, इन्द्रा कॉलोनी-1 व 2, सेक्टर-51, सेक्टर-51 मे फील्ड गार्डन, तिगरा गांव, सेक्टर-57, मेफील्ड गार्डन सेक्टर-50, सुशांत लोक-3, अतिरिक्त शामिल हैं।

**वार्ड नं० 15 :-** प्रारंभिक बिन्दु (28.4172, 77.0404) से मालिबू टाउन की दक्षिण-पूर्वी सीमा के साथ पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हुए जो मेफील्ड गार्डन की पश्चिमी सीमा पर मिलती है बिन्दु ( 28.4217, 77.0546) तक, तत्पश्चात दक्षिण-पूर्व दिशा की ओर मेफील्ड गार्डन की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ बढ़ते हुए गोल्फ-कोर्स रोड पर बिन्दु (28.4156, 77.0706) तक की ओर (28.4124, 77.0746) तक, तत्पश्चात दक्षिण-पूर्व दिशा मे गोल्फ-कोर्स रोड पर बढ़ते हुए गांव तिगरा की राजस्व सीमा बिन्दु (28.4118, 77.0838) तक, जहां यह घाटा, तिगरा और नंगली उमरपुर गांवों के राजस्व सम्पदा की सीमा पर त्रि-जंक्शन मिलता है, तत्पश्चात वहां से दक्षिणी दिशा की ओर बढ़ते हुए नंगली उमरपुर, मैदावास और धूमसपुर गांवों की राजस्व सीमा के साथ बिन्दु (28.3835, 77.0666) तक IREO कॉरिडोर टॉवर ए-9 के पास, जहां यह धूमसपुर, मैदावास और बादशाहपुर गांवों की राजस्व सीमा से मिलता है, तत्पश्चात गाँव बादशाहपुर की उत्तरी सीमा के साथ उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुए, हनुमान मंदिर के पास, बिन्दु (28.3966, 77.0518) तक, तत्पश्चात बादशाहपुर गाँव की आबादी के साथ पश्चिम-उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हुए और बाद में सोहना सड़क के साथ वटिका चौक पर बिन्दु (28.4013, 77.0449) तक, तत्पश्चात दक्षिणी पेरिफेरल रोड पर उत्तर-पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हुए उपपल साउथेंड की पूर्व-उत्तरी सीमा के साथ बिन्दु (28.4117, 77.042) सी.डी. चौक तक, तत्पश्चात सोहना-गुरुग्राम राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-248 पर उत्तरी दिशा की ओर बढ़ते हुए प्रारंभिक बिन्दु (28.412, 77.0404) तक। इस वार्ड में मालिबू टाउन का हिस्सा, साउथ सिटी-2, सेक्टर-49, 50, निरवाना कन्ट्री, रोजवुड सिटी, सेक्टर-65-66, गांव नंगली उमरपुर, मैदान और धर्मपुर और गांव घसोला आदि शामिल हैं।

**वार्ड नं० 16 :-** प्रारंभिक बिन्दु वटिका चौक से (28.4013, 77.0449), तत्पश्चात दक्षिणी परिधीय सड़क (एस0 पी0 आर0) के साथ पश्चिम की ओर बढ़ते हुए बिन्दु बाबा जहरवीर गोगा जी चौक (28.4025, 77.000) तक, तत्पश्चात उत्तर-पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हुए और बेगमपुर खटोला गांव की आबादी सीमा के दक्षिण-पश्चिम कोने के साथ साथ बिन्दु (28.4203, 77.0099) तक, तत्पश्चात उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर 30 मीटर सड़क के साथ आगे बढ़ते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग -48 बिन्दु (28.4244, 77.0005 ) तक, तत्पश्चात राष्ट्रीय राजमार्ग -48 पर उत्तर-पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हुए एकलव्य चौक बिन्दु (28.4359, 77.0102) तक, तत्पश्चात नेताजी सुभाष मार्ग रोड पर दक्षिण-पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हुए बिन्दु (28.4264, 77.0276) तक, तत्पश्चात गाँव टिकरी की राजस्व सीमा के साथ-साथ आगे बढ़ते हुए और बादशाहपुर नाला को पार करते हुए (उत्तर-पूर्व सीमा उपपल साउथेंड) बिन्दु (28.4134, 77.04151) तक, तत्पश्चात राष्ट्रीय राजमार्ग-248 के साथ-साथ बिन्दु (28.4117, 77.042) सी.डी. चौक तक, तत्पश्चात दक्षिण-पूर्वी दिशा की ओर बढ़ते हुए उपपल साउथेंड की पूर्व-उत्तरी सीमा के साथ बाद में पश्चिमी दिशा पर चलते हुए दक्षिणी पेरिफेरल रोड के साथ प्रारंभिक बिन्दु (28.4013, 77.0449) तक, जो वटिका चौक है। इस वार्ड में फजिलपुर झाड़सा, सेक्टर -71, 73, 74, सेक्टर -34, बेहरमपुर गांव, सेक्टर -72 ए, उपपल साउथेंड आदि शामिल हैं।

**वार्ड नं० 17 :-** नॉर्थ-ईस्ट कॉर्नर पॉइंट (28.4244, 77.0005) से शुरुआती बिंदु, 30 मीटरके साथ दक्षिण-पूर्व की ओर बढ़ रहा है। बेगमपुर खटोला की ओर चौड़ी सड़क 28.4203, 77.00998 तक, बेगमपुर खटोला की आबादी सीमा के साथ-साथ सेक्टर -35 की पूर्वी सीमा की ओर बढ़ते हुए और सेक्टर-35 की पूर्वी सीमा के साथ आगे बढ़ते हुए दक्षिण-पश्चिम दिशा की ओर दक्षिणी पेरिफेरल रोड की ओर बढ़ते हुए (एस0 पी0 आर0) और एस0 पी0 आर0 पर मिलते हैं बिंदु बाबा जहरवीर गोगा जी चौक (28.4025, 77.0005), महाराणा प्रताप चौक (28.4009, 77.0005) तक पूर्व दिशा की ओर एस0 पी0 आर0 के साथ चलते हुए, सेक्टर-75/70 के सेक्टर डिवाइडिंग रोड के साथ-साथ दक्षिण-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुए बिंदु 28.3949, 77.0146 तक, इसके बाद पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हुए बिंदु 28.3945 77.0208 तक, GPL ईडन हाइट्स के पास और दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते हुए, जो उत्तर-गाँव पलरा की पूर्वी सीमा पर मिलती है और गाँव पलरा की राजस्व सीमा के साथ-साथ आगे बढ़ती है बिंदु 28.3821, 77.0128, जहाँ राजस्व सीमा गाँव पलरा और दरबारीपुर से मिलती है, गाँव दरबारीपुर की दक्षिणी सीमा और सेक्टर-76 की पूर्वी सीमा के साथ-साथ गाँव खेड़की दौला की उत्तरी सीमा 28.4015, 76.9877 तक चलती है, एनएच -48 पर दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते हुए बिंदु 28.3971, 76.9833 तक, जहाँ उत्तरी परिधीय सड़क (एन0 पी0 आर0), फिर एनपीआर के साथ उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुए बिंदु 28.430053, 76.961300 तक, जो गुरुग्राम-पटौदी सड़क को पार करते हैं, गुरुग्राम-पटौदी रोड पर उत्तर-पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हुए बिंदु 28.4382, 76.976 तक प्राचीन हनुमान मंदिर के पास, गाँव गडोली खुर्द की फिरनी के साथ-साथ पूर्वी दिशा को आगे बढ़ते हुए और बादशाहपुर को 28.4332, 76.9907 तक पार करते हुए, पेस सिटी की दक्षिणी दिशा की ओर बढ़ते हुए बिंदु 28.4306, 76.98848 तक, गाँव खांडसा की दक्षिणी सीमा की ओर बढ़ते हुए बिंदु 28.4244, 77.0005 तक, जो कि शुरुआती बिंदु है। इस वार्ड में मोहम्मदपुर झाड़सा, नरसिंहपुर, बेगमपुर खटोला, सेक्टर-74 ए, 75 ए, सेक्टर-75, गाँव खेड़की दौला, गाँव सिही, गाँव दरबारीपुर, गाँव पलरा आदि शामिल हैं।

**वार्ड नं० 18 :-** प्रारंभिक बिन्दु (28.4013, 77.0449) वाटिका चौक से, गुडगांव-सोहना रोड के साथ दक्षिण-पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हुए और बाद में गाँव बादशाहपुर की उत्तरी सीमा के साथ-साथ दक्षिण-पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हुए बिन्दु (28.3966, 77.0518) हनुमान मंदिर के पास, तत्पश्चात गाँव बादशाहपुर की राजस्व सीमा के साथ-साथ बिन्दु (28.3835, 77.0666) IREO कॉरिडोर टॉवर ए-9 के पास, जहाँ यह गांवों धुमसपुर व बादशाहपुर की राजस्व संपत्ति से मिलता है, तत्पश्चात गाँव की सीमा बादशाहपुर की राजस्व सीमा के साथ-साथ दक्षिण-पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हुए बिन्दु भूप नगर कॉलोनी (28.3744, 77.0757) जहाँ यह सीमा गांवों धुमसपुर - बादशाहपुर और राजस्व सीमा से मिलता है, राजस्व सीमा गाँव बादशाहपुर, नूरपुर झाड़सा की दक्षिणी सीमा के साथ पश्चिमी दिशा की ओर बढ़ते हुए बिन्दु (28.3748, 77.0306) जहाँ यह गांवों पलरा की राजस्व सीमा के साथ मिलता है, तत्पश्चात नूरपुर झारसा और गाँव अकलीमपुर, फिर गाँव नूरपुर झाड़सा की पश्चिमी सीमा और गाँव पलरा की उत्तरी सीमा के साथ उत्तर-पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हुए बिन्दु (28.3897, 77.0209), इसके बाद उत्तर-पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हुए बिंदु (28.3945, 77.0208) तक GPL EDEN हाइट्स के पास, तत्पश्चात दक्षिण-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुए बिन्दु (28.3946, 77.01465) तक, तत्पश्चात सेक्टर 75/70 की विभाजित सड़क के साथ-साथ उत्तर-पूर्व की ओर बढ़ते हुए बिन्दु (28.4009, 77.0162) तक, तत्पश्चात दक्षिणी परिधीय सड़क के साथ-साथ दक्षिण-पूर्व की ओर बढ़ते हुए प्रारंभिक बिन्दु ( 28.4013, 77.0449 ) जो वाटिका चौक है। इस वार्ड में ग्राम बादशाहपुर, रामगढ़ की धानी, नूरपुर, सेक्टर -67, 68, 69 और 70 आदि शामिल हैं।

**वार्ड नं० 19 :-** प्रारंभिक बिन्दु (28.3788, 77.0838) गाँव कादरपुर के राजस्व सीमा के दक्षिण-पश्चिमी कोने से जो गाँव बादशाहपुर-सोहना की निर्वाचन क्षेत्र सीमा पर मिलता है, तत्पश्चात गाँव कादरपुर की राजस्व सीमा की दक्षिण-पश्चिमी सीमा के साथ-साथ चलते हुए, दक्षिण-पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हुए, जो नगर निगम गुरुग्राम की सीमा पर मिलता है बिन्दु (28.3667, 77.1169) तक, तत्पश्चात गाँव भोंडसी की राजस्व सीमा की दक्षिण-पश्चिमी सीमा की ओर बढ़ते हुए और राष्ट्रीय राजमार्ग-248 सोहना-गुरुग्राम रोड से गुजरते हुए और गाँव भोंडसी, टिकली और घामडोज की राजस्व सीमा के त्रि-जंक्शन तक, तत्पश्चात गाँव भोंडसी की राजस्व सीमा के साथ उत्तर-पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हुए बिन्दु (28.3692, 77.0451) तक, तत्पश्चात गाँव बादशाहपुर की राजस्व संपत्ति के साथ-साथ भोंडसी गाँव की राजस्व सीमा के साथ उत्तर-पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हुए भूप नगर कॉलोनी बिन्दु (28.3744, 77.0757) तक जहाँ यह सीमा गांवों धुमसपुर और बादशाहपुर की राजस्व सीमा से मिलता है, तत्पश्चात ग्राम भोंडसी की राजस्व सीमा के साथ प्रारंभिक बिन्दु (28.3788, 77.0838) तक। इस वार्ड में ग्राम भोंडसी, मोहन नगर, वाटिका कुंज, मारुति कुंज, नया गाँव, डिफेंस कॉलोनी, श्री राम कॉलोनी, रेयान कॉलोनी, श्याम कुंज, एकता एन्क्लेव, मयूर एन्क्लेव, निर्मला एन्क्लेव, शांति कुंज आदि शामिल हैं।

**वार्ड नं० 20 :-** प्रारंभिक बिन्दु (28.3788, 77.0838) गाँव कादरपुर के राजस्व सीमा के दक्षिण-पश्चिम कोने से जो गाँव मैदावास और नंगली उमरपुर की पूर्वी राजस्व सीमा की सीमा के साथ उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हुए और बादशाहपुर और सोहना की निर्वाचन क्षेत्र सीमा से मिलता है, बिन्दु (28.4118, 77.0838) तक जहाँ यह घाटा, तिगरा और नंगली उमरपुर गांवों के राजस्व सीमा के त्रि-जंक्शन से मिलता है, तत्पश्चात उत्तर-पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हुए गाँव घाटा की राजस्व सीमा के साथ-साथ बिंदु (28.434, 77.1201) जहाँ यह घाटा, बलोला और ग्वाल पहाड़ गांवों की राजस्व सीमा पर त्रिकोण बिन्दु पर मिलता है तत्पश्चात उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हुए गाँव ग्वाल पहाड़ी की पश्चिमी सीमा के साथ बिन्दु (28.4426, 77.1239) तक जहाँ यह हरियाणा और दिल्ली सीमा के साथ-साथ ग्राम ग्वाल पहाड़ी और ग्राम हैदरपुर वीरान की ग्राम सीमा की राजस्व सीमा से मिलता है, तत्पश्चात उत्तर-पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हुए ग्वाल पहाड़ी, बलोला गांवों की राजस्व सीमा के साथ-साथ बिंदु (28.4106, 77.1733) तक गुरुग्राम-फरीदाबाद टोल- प्लाजा के पास, तत्पश्चात बंधवाड़ी, बेरमपुर और कादरपुर गांवों की राजस्व सीमा के साथ दक्षिणी दिशा की ओर बढ़ते हुए प्रारंभिक बिन्दु (28.3788, 77.0838) तक। इस वार्ड में कादरपुर, उल्लावास, बेरमपुर, बंधवाड़ी, बलोला, ग्वाल पहाड़ी, घाटा, सेक्टर-58, 61, 62, सेक्टर-55, सुशान्त लोक-2 आदि शामिल हैं।

**वार्ड नं० 21:-** प्रारंभिक बिंदु (28.4402, 77.0702) अरिहंत अस्पताल के पास, सेक्टर-45/52, 44/52 के सेक्टर विभाजन सड़क पर उत्तर-पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ते हुए बिंदु 28.447310, 77.079475) जोकि रेड लाइट आर्डी सिटी के पास स्थित है, तत्पश्चात सुशांत लोक के ई-ब्लॉक की सीमा के साथ सेंट थॉमस मार्ग के साथ आगे बढ़ते हुए, तत्पश्चात उत्तर-पूर्व दिशा में दुबारा सेंट थॉमस मार्ग की ओर बढ़ते हुए और सेंट थॉमस मार्ग पर पूर्व दिशा में आगे बढ़ते हुए डीएलएफ फेस-5 की सीमा पर मिलता है, तत्पश्चात डीएलएफ फेस -5 की दक्षिणी सीमा के साथ साउथ प्वाइंट मॉल पर स्थित बिंदु (28.4476, 77.1002) जोकि रैपिड मेट्रो सेक्टर-53-54 से गोल्फ-कोर्स रोड से मिलता है (रघुवेंद्र मार्ग) रघुवेंद्र मार्ग के साथ दक्षिण-पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हुए बिंदु (28.4375, 77.1036) वाटिका टॉवर के पास स्थित है, तत्पश्चात उत्तर-पूर्व दिशा में हैदरपुर विरान की राजस्व सीमा के साथ आगे बढ़ते हुए बिन्दु (28.4426, 77.1239) तक जोकि जहां यह हरियाणा और दिल्ली सीमा के साथ-साथ ग्राम ग्वाल पहाड़ी और ग्राम हैदरपुर विरान की राजस्व सीमा के साथ, तत्पश्चात दक्षिण-पश्चिम दिशा में बादशाहपुर और सोहना की निर्वाचन क्षेत्र की सीमा के साथ बढ़ते हुए बिन्दु (28.4159, 77.0848) जहां यह दक्षिणी परिधिय मार्गपर मिलता है, तत्पश्चात उत्तर-पूर्व दिशा की ओर गाँव तिगरा की राजस्व सीमा और गाँव वजीराबाद की दक्षिणी राजस्व सीमा के साथ बिन्दु (28.4305, 77.0711) तक, तत्पश्चात उत्तर-पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हुए इन्द्रा कालोनी 1 और 2 की उत्तर-पूर्वी सीमा के साथ आगे बढ़ते हुए प्रारंभिक बिन्दु (28.4402, 77.0702) तक। इस वार्ड में वजीराबाद, आर.डी.सिटी, सेक्टर -52, सेक्टर -57, सुशांत लोक-2, सेक्टर-56, सेक्टर-53, सेक्टर -52ए, सेक्टर-54, सनसिटी, सुशांत लोक ई ब्लॉक, आदि शामिल हैं।

**वार्ड नं० 22 :-** प्रारंभिक बिंदु (28.4589, 77.0742) हुडासिटी सेंटर के पास तत्पश्चात सैक्टर-29/27, 29/28 के विभाजित रोड (अगस्त क्रांति मार्ग) उत्तर दिशा की ओर बिंदु तक (28.474097, 77.072120), तत्पश्चात Laburnum Condominium Society के साथ पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हुए और पूर्व दिशा की ओर तत्पश्चात डी.एल.एफ फेस-4 की उत्तर पूर्वी सीमा जोकि सी.टी. हैमिल्टन रोड पर बिन्दु (28.4682, 77.0862), तत्पश्चात सी.टी. हैमिल्टन रोड के साथ पूर्व दिशा आगे बढ़ते हुए, जोकि गोल्फ कोर्स रोड पर स्थित बिंदु (28.468, 77.0944) पर मिलता है, तत्पश्चात गोल्फ कोर्स रोड के साथ आगे बढ़ते हुए बिंदु (28.4663, 77.0948) तक, तत्पश्चात इस बिन्दु से पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुए बिंदु (28.4656, 77.0932) तक, तत्पश्चात दक्षिण-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुए बिंदु तक (28.4645, 77.0926) तक, तत्पश्चात दक्षिण-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुए जो गोल्फ कोर्स रोड पर फिर से बिन्दु (28.4632, 77.0956) पर मिलते हैं, तत्पश्चात सनसेट बुलबर्ड रोड पर पूर्व दिशा में आगे बढ़ते हुए बिन्दु (28.4642, 77.1055) तक जोकि शिव नादर स्कूल के सामने स्थित हैं तत्पश्चात दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते हुए बिन्दु (28.4604, 77.1054) जोकि अरालिया के पास स्थित हैं, तत्पश्चात गाँव वजीराबाद की राजस्व सीमा के साथ पूर्व दिशा में आगे बढ़ते हुए बिन्दु (28.4632, 77.1164), जहाँ यह गाँव चक्करपुर और वजीराबाद की राजस्व सीमा पर मिलता है, तत्पश्चात गुरुग्राम-फरीदाबाद सड़क पर दक्षिणी दिशा की ओर बढ़ते हुए बिन्दु ( 28.4426, 77.1239), जहां यह हरियाणा और दिल्ली सीमा के साथ-साथ ग्राम ग्वाल पहाड़ी और ग्राम हैदरपुर विरान की राजस्व सीमा पर मिलती हैं, तत्पश्चात उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुए गाँव वजीराबाद की दक्षिणी राजस्व सीमा के साथ-साथ बिंदु (28.4375, 77.1036) तक, जोकि वाटिका टावर के पास स्थित हैं, तत्पश्चात गोल्फ-कोर्स रोड पर उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हुए बिंदु साउथ प्वाइंट मॉल (28.4476, 77.1002) रैपिड मेट्रो सेक्टर-53, 54 के पास स्थित हैं, तत्पश्चात डीएलएफ फेस-5 की सीमा के साथ पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुए बिंदु (28.4499, 77.0873) तक, जोकि पारस अस्पताल के पास स्थित हैं, तत्पश्चात सुशांत लोक फेस-1 की सीमा के साथ उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हुए, बिन्दु (28.4612, 77.0847) जोकि व्यापार केंद्र के पास स्थित हैं, तत्पश्चात सैक्टर- 43/27 के विभाजित रोड के साथ पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुए शुरुआती बिंदु तक। इस वार्ड में सुशांत लोक फेस-1 ब्लॉक-ए और बी, डीएलएफ फेस-4, सेक्टर-43, सेक्टर-42, सेक्टर-27, हरिजन कॉलोनी वजीराबाद डीएलएफ फेस-5 आदि शामिल हैं।

**वार्ड नं० 23 :-** प्रारंभिक बिन्दु ( 28.4787, 77.094 ) जो गांव सिकंदरपुर घोसी की दक्षिणी सीमा से जुड़ता है, यानी ब्रिस्टल होटल के पीछे से, दक्षिण-पूर्वी दिशा में गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड पर आगे बढ़ते हुए जोकि कुतुब प्लाजा के सामने स्थित बिन्दु (28.4725, 77.1028) तक, तत्पश्चात सिलवर ओक अपार्टमेंट की पश्चिमी सीमा के साथ उत्तर-पूर्वी दिशा में आगे बढ़ते हुए गली जी- 17 पर स्थित बिन्दु (28.4718, 77.1067), तत्पश्चात डीएलएफ फेस -1 की उत्तरी सीमा के साथ पूर्व दिशा में आगे बढ़ते हुए गांव सिकंदरपुर घोसी की राजस्व सीमा के दक्षिण पूर्वी बिन्दु (28.4711, 77.1136) तक, तत्पश्चात गांव चक्करपुर और वजीराबाद की राजस्व सीमा के साथ दक्षिण दिशा में आगे बढ़ते हुए बिन्दु (28.4632, 77.1164) जोकि गाँव चक्करपुर और वजीराबाद की राजस्व सीमा पर मिलता है, तत्पश्चात गांव वजीराबाद की राजस्व सीमा के साथ पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए बिन्दु (28.4606, 77.1054) जोकि अरालिया के पास स्थित हैं, तत्पश्चात उत्तर दिशा में आगे बढ़ते हुए बिन्दु (28.4642, 77.1055) जोकि शिवनादर स्कूल के सामने स्थित है, तत्पश्चात सनसेट बूलवर्ड सड़क पर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए बिन्दु (28.4632, 77.0956) जोकि गोल्फ कोर्स रोड पर मिलता है। तत्पश्चात उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए बिन्दु (28.4645, 77.0926) तक, तत्पश्चात उत्तर-पूर्वी दिशा में बिन्दु (28.4663, 77.0933) और पूर्व दिशा में गोल्फ कोर्स रोड पर स्थित बिन्दु (28.4663, 77.0948) तक, तत्पश्चात गोल्फ कोर्स रोड के साथ-साथ उत्तर दिशा में आगे बढ़ते हुए बिन्दु (28.468, 77.0944) तक, तत्पश्चात गलेरिया मार्केट रोड की तरफ आगे बढ़ते हुए बिन्दु (28.4682, 77.0862) तक, तत्पश्चात डीएलएफ फेस-4 की उत्तरी सीमा के साथ और मारुती विहार कालोनी की पश्चिमी सीमा के साथ उत्तर-पूर्वी दिशा में आगे बढ़ते हुए बिन्दु (28.4777, 77.0816) जोकि गाँव सरहौल की राजस्व सीमा पर मिलता है, तत्पश्चात गाँव सिकंदरपुर घोसी की राजस्व

सीमा के साथ पूर्व दिशा में आगे बढ़ते हुए जोकि प्रारम्भिक बिन्दु (28.4787, 77.094) पर मिलता है। इस वार्ड में सरस्वती विहार कॉलोनी, मारुति विहार, चक्करपुर, सेक्टर -28, डीएलएफ सिटी फेस-1, अरावली हिल्स आदि शामिल हैं।

**वार्ड नं० 24 :-** प्रारम्भिक बिन्दु (28.4589, 77.0742) जो हुड्डा सिटी सेंटर के पास स्थित है, तत्पश्चात् सेक्टर- 29/28 के सेक्टर डिवाइडिंग रोड पर पूर्व की ओर बढ़ते हुए बिन्दु (28.4612, 77.0847) तक, तत्पश्चात् सुशान्त लोक फेस-1 की सीमा के साथ दक्षिणी-पूर्वी दिशा में आगे बढ़ते हुए बिन्दु ( 28.4499, 77.0873 ) जोकि पारस अस्पताल के पास स्थित है, तत्पश्चात् लोक फेस-1 के ई-ब्लॉक की दक्षिण-पश्चिमी सीमा के साथ आगे बढ़ते हुए बिन्दु (28.4485, 77.083) तक, तत्पश्चात् सेंट थॉमस मार्ग पर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए बिन्दु (28.4473, 77.0794) जोकि आर.डी सिटी की रेड लाइट के पास स्थित है। तत्पश्चात् सैक्टर 44/52 और 45/52 के विभाजित रोड के साथ आगे बढ़ते हुए आरटेमीस अस्पताल की रेड लाईट पर स्थित बिन्दु (28.437, 77.0673) तक, तत्पश्चात् सैक्टर-45/46 के विभाजित रोड पर उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए बिन्दु (28.4401, 77.0632) तक, तत्पश्चात् ग्रीनवुड सिटी की उत्तर-पूर्वी सीमा के साथ उत्तर की दिशा में आगे बढ़ते हुए बिन्दु (28.4501, 77.0642), तत्पश्चात् आर्य समाज मार्ग के साथ उत्तर-पूर्वी दिशा में आगे बढ़ते हुए बिन्दु (28.4568, 77.0704) तक, तत्पश्चात् गुरुग्राम और बादशाहपुर की निर्वाचन सीमा के साथ दक्षिण-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए बिन्दु (28.4598, 77.0495) जोकि यूनिटेक सिग्नेचर टॉवर- 2 और राष्ट्रीय राजमार्ग-48 के साथ उत्तर-पूर्वी दिशा में आगे बढ़ते हुए बिन्दु (28.4793, 77.0707) तक, तत्पश्चात् डेल्टा स्क्वायर बिल्डिंग के पीछे से पूर्वी दिशा में और एम.जी. रोड के साथ बढ़ते हुए बिन्दु (28.4786, 77.0739) और बेवर्ली पार्क-1 के पीछे व एम.जी. रोड की ओर बढ़ते हुए बिन्दु (28.479, 77.0788) तक, तत्पश्चात् दक्षिण-पूर्वी दिशा में आगे बढ़ते हुए बिन्दु (28.4777 77.0816) जो गाँव सरहौल व सिकन्दरपुर घोसी की दक्षिणी राजस्व सीमा पर मिलती है, तत्पश्चात् मारुती विहार कालोनी सीमा के साथ आगे बढ़ते हुए बिन्दु (28.4743, 77.0789) तक, तत्पश्चात् लेबर्नम कॉन्डोमिनियम सोसायटी के साथ पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए बिन्दु (28.4741 77.0722) तक, तत्पश्चात् सैक्टर-28/29, 27/29 के विभाजित रोड (अगस्त क्रांति मार्ग) के साथ आगे बढ़ते हुए प्रारम्भिक बिन्दु (28.4589, 77.0742) तक, जोकि हुड्डा सिटी सेंटर के पास स्थित है। इस वार्ड में सुशांत लोक फेस-1, सेक्टर -44, कन्हई गांव, सेक्टर-45, सेक्टर-29, ई.एस.एस.ई.एल टावर्स, बेवर्ली पार्क, सैनीखेड़ा, सिलोखरा, मोती विहार, सेक्टर-30, साउथसिटी-1, विजय विहार, जलवायु विहार आदि शामिल हैं।

**वार्ड नं० 25 :-**प्रारम्भिक बिंदु 28.4793, 77.0702 से शुरू होकर, जोकि एन0एच08 (सेक्टर 17-18 डिवाइडिंग रोड) पर स्थित है, तत्पश्चात् एन0एच08 के साथ दक्षिण की ओर बढ़ते हुए बिंदु 28.4598, 77.0495 तक नजदीक युनिटेक सिग्नेचर टॉवर-2, तत्पश्चात् पश्चिम-उत्तर की ओर बढ़ते हुए बिंदु 28.4633, 77.0436 (इन्द्रधनुष प्री स्कूल) तक, तत्पश्चात् पटेल नगर कॉलोनी और पुलिस लाइन की उत्तरी-पश्चिमी सीमा की ओर बढ़ते हुए महाराजा अग्रसेन चौक (28.4631, 77.0329) तक, तत्पश्चात् उत्तर में बस-स्टैंड सड़क की ओर बढ़ते हुए बिंदु महात्मा ज्योतिबा फूले चौक (28.4707, 77.0343) तक, तत्पश्चात् सेक्टर-12 सड़क पर पूर्वी-दक्षिणी दिशा की ओर बढ़ते हुए बिंदु 28.4684, 77.0377 चौपाल होटल के सामने तक, तत्पश्चात् उत्तर-पूर्व की ओर बढ़ते हुए पुरानी दिल्ली रोड के साथ बिंदु 28.4891, 77.0559 तक, तत्पश्चात् पूर्वी दिशा की ओर बढ़ते हुए सेक्टर 17-18 की विभाजन सड़क के साथ प्रारम्भिक बिंदु 28.4793, 77.0702 तक। इस वार्ड में गांव सुखराली, सेक्टर-17, एयर फोर्स स्टेशन, एमडीआई, आईडीसी, सेक्टर-14, कैनाल कॉलोनी, ओल्ड डीएलएफ, चंदर नगर, सेक्टर 16, अनामिका एन्क्लेव, पुलिस लाइन, एचवीपीएनएल कॉलोनी, सेक्टर-12 ए, प्रेम नगर-2 आदि शामिल हैं।

**वार्ड नं० 26 :-**प्रारम्भिक बिंदु 28.4815, 77.0495 से शुरू होकर, जोकि लेफ्टिनेंट अतुल कटारिया चौक है, तत्पश्चात् दक्षिण-पश्चिमी सीमा की ओर बढ़ते हुए, पुरानी दिल्ली रोड के साथ चौपाल होटल के सामने बिंदु 28.4684, 77.0377 तक, तत्पश्चात् प्रेम नगर- 2 की उत्तरी सीमा की ओर बढ़ते हुए सेक्टर-12 रोड के साथ बिंदु महात्मा ज्योतिबा फूले चौक (28.4707, 77.0343) तक, तत्पश्चात् दक्षिण की ओर बढ़ते हुए बस-स्टैंड रोड के साथ बिंदु 28.467, 77.0338 (हरियाणा रोडवेज वर्कशॉप) तक, तत्पश्चात् मियावाली कॉलोनी की उत्तरी-पश्चिमी सीमा के साथ बिन्दु 28.4684, 77.0272 तक, तत्पश्चात् उत्तर-पूर्व की ओर बढ़ते हुए सेक्टर-12ए सड़क के साथ बिन्दु 28.4789, 77.0324 तक नजदीक शीतला माता मंदिर, तत्पश्चात् पश्चिम-उत्तर की ओर बढ़ते हुए शीतला माता रोड के साथ शीतला कॉलोनी ब्लॉक-ए व बी के साथ सी0आर0पी0एफ0 कैप चौक (28.4786, 77.0354) तक, तत्पश्चात् पूर्वी दिशा की ओर शीतला माता रोड के साथ बढ़ते हुए प्रारम्भिक बिंदु 28.4815, 77.0495 तक। इस वार्ड में संजय ग्राम, राजीव नगर, राजीव नगर पश्चिम, आचार्य पुरी, सेक्टर-12 ए, शीतला कॉलोनी ब्लॉक-ए व बी आदि शामिल हैं।

**वार्ड नं० 27 :-**प्रारम्भिक बिन्दु राजीव चौक (28.4456, 77.0336), तत्पश्चात् एन0एच0-48 की ओर बढ़ते हुए बिंदु 28.448, 77.0247 (नैकसा शोरूम) तक, तत्पश्चात् शान्ति नगर व शिवाजी नगर कॉलोनी की उत्तर-पूर्वी सीमा के साथ बढ़ते हुए बिंदु 28.454, 77.0299 तक कार्यालय, पुलिस आयुक्त के सामने, तत्पश्चात् पुराने रेलवे रोड के साथ बढ़ते हुए बिंदु 28.4623, 77.0237 (शिव मूर्ति चौक) तक, तत्पश्चात् इंद्रा पुरी कॉलोनी की सीमा के साथ उत्तर की ओर बढ़ते हुए बिंदु 28.4656, 77.0288 तक, तत्पश्चात् नए रेलवे रोड के साथ पश्चिमी की ओर बढ़ते हुए बिंदु 28.4684 77.0272 तक, तत्पश्चात् मियावाली कॉलोनी की उत्तरी-पश्चिमी सीमा के साथ बढ़ते हुए बिंदु 28.467, 77.0338 (हरियाणा रोडवेज कार्यशाला) तक, तत्पश्चात् बस-स्टैंड रोड पर दक्षिण की ओर बढ़ते हुए महाराजा अग्रसेन चौक (28.4631, 77.0329) तक, तत्पश्चात् पटेल नगर कॉलोनी की सीमा के साथ बिंदु 28.4609, 77.0417 (इन्द्रधनुष प्री स्कूल) तक, तत्पश्चात् झाड़सा बांध पर दक्षिणी की ओर बढ़ते हुए बिंदु 28.4515, 77.0309 (नए पी0डब्ल्यू0डी0 रेस्ट हाउस) तक, तत्पश्चात् सोहना रोड पर दक्षिण की ओर बढ़ते हुए, जोकि



प्रारंभिक बिंदु है राजीव चौक (28.4456, 77.0336)। इस वार्ड में सिविल लाइन्स, फ्रेंड्स कॉलोनी, बरफ खाना, रोशनपुरा, गोपाल नगर-आदर्श नगर-लाजपत नगर, इंद्रा पुरी, जैकबपुरा, जैकबपुरा वेस्ट, पटेल नगर, मिनी सचिवालय आदि शामिल हैं।

**वार्ड नं० 28 :-**प्रारंभिक बिन्दु पटौदी रोड 28.4518, 77.0066 नजदीक रोटरी क्लब ब्लड बैंक, तत्पश्चात् उत्तर-पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हुए गुरुग्राम-बादशाहपुर की निर्वाचन क्षेत्र सीमा व शिव नगर/अमर कालोनी बिंदु 28.4544, 77.0136 तक जोकि पुलिस चौकी पटौदी रोड का मिलन बिंदु है, तत्पश्चात् दक्षिण-पूर्वी दिशा की ओर बढ़ते हुए हीरा नगर/गांधी नगर की उत्तरी की आरे बढ़ते हुए बिंदु 28.4505, 77.0178 (डी0ए0वी0 सीनियर सैकेंडरी स्कूल) तक, तत्पश्चात् खाण्डसा रोड पर उत्तर-पूर्वी दिशा की आरे बढ़ते हुए बिंदु 28.4531, 77.0203 नजदीक एस0डी0 लड़कों के सीनियर सैकेंडरी स्कूल तक, तत्पश्चात् पूर्वी की ओर ओम नगर रोड के साथ बढ़ते हुए बिंदु 28.4524, 77.0264 तक जोकि शिवाजी नगर कालोनी व शांति नगर कालोनी का मिलन बिंदु है, तत्पश्चात् दक्षिणी ओर बढ़ते हुए बेरी वाला बाग रोड के साथ जोकि एन0एच0-48 से गुजरता है बिंदु 28.4431, 77.0216 तक, तत्पश्चात् दक्षिण-पश्चिम की ओर राजीव कालोनी की दक्षिणी सीमा के साथ बढ़ते हुए बिंदु 28.4441, 77.0171 तक, तत्पश्चात् पश्चिमी दिशा की आरे बढ़ते हुए हरि नगर व शक्ति पार्क की उत्तरी सीमा के साथ बिंदु 28.4487, 77.007 तक, तत्पश्चात् उत्तर-पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हुए गांधी नगर कालोनी की पश्चिमी सीमा के साथ प्रारंभिक बिंदु 28.4518, 77.0066 नजदीक रोटरी क्लब ब्लड बैंक तक। इस वार्ड में राजीव कॉलोनी, शांति नगर, ओम नगर, राज नगर, अनाज मंडी, शिवजी पार्क, गांधी नगर, शिव नगर, हीरा नगर, अमर कॉलोनी आदि शामिल हैं।

**वार्ड नं० 29 :-**प्रारंभिक बिन्दु 28.457, 77.0079 बसई रोड पर यानी एन0के0 फैक्ट्री, तत्पश्चात् फिरोज गांधी कालोनी-I, बलदेव नगर, मनोहर नगर, वीर नगर, नई आबादी की पश्चिमी-उत्तरी सीमा के साथ बढ़ते हुए बिंदु 28.4569, 77.0208 तक नजदीक सेठी अस्पताल, तत्पश्चात् बसई रोड पर उत्तर-पूर्वी दिशा की ओर भुतेश्वर मंदिर चौक व शिवाजी नगर कालोनी की बाहरी सीमा के साथ बढ़ते हुए बिंदु 28.4531, 77.0203 (एस डी. लड़कों के सीनियर सेकेंडरी स्कूल) तक, तत्पश्चात् खाण्डसा रोड पर दक्षिण दिशा की ओर बिंदु 28.4505, 77.0178 (डी0ए0वी0 सीनियर सेकेंडरी स्कूल) तक, तत्पश्चात् पश्चिम की ओर बढ़ते हुए हीरा नगर-गांधी नगर की उत्तरी सीमा के साथ बिंदु 28.4544, 77.0136 तक जोकि पुलिस चौकी पटौदी रोड का मिलन बिंदु है, तत्पश्चात् अमर कॉलोनी की उत्तरी-पश्चिमी सीमा के साथ आगे बढ़ते हुए जोकि प्रारंभिक बिंदु (28.457, 77.0079) है। इस वार्ड में नई आबादी, वीर नगर, मनोहर नगर, बलदेव नगर, फिरोज गांधी कॉलोनी- 1 ऑटो मार्केट, अमर कॉलोनी (भाग), शक्ति नगर, लक्ष्मी गार्डन, आठ मरला और शिवाजी नगर आदि शामिल हैं।

**वार्ड नं० 30 :-**प्रारंभिक बिंदु 28.4672, 77.0209 जो कि न्यू कॉलोनी मोड़ है, तत्पश्चात् ओल्ड रेलवे रोड पर पूर्व-दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते हुए (28.4651, 77.0219) नजदीक प्रेम मंदिर नेहरू लेन, विजय पार्क, प्रताप नगर की पूर्वी सीमा के साथ बिंदु 28.4623, 77.0186 तक नजदीक गली नं. 1 मदनपुरी, तत्पश्चात् अर्जुन नगर, राम नगर की उत्तर-पूर्वी सीमा के साथ बसई रोड पर बिंदु 28.4569, 77.0208 नजदीक सेठी अस्पताल तक, तत्पश्चात् अर्जुन नगर, मदनपुरी की दक्षिणी सीमा की ओर बढ़ते हुए बिंदु 28.4604, 77.0118 तक, तत्पश्चात् मदनपुरी रोड पर पूर्वी दिशा की ओर बढ़ते हुए ज्योति पार्क की गली नंबर 7 (28.4612, 77.0138) तक, तत्पश्चात् ज्योति पार्क पूर्व की सीमा के साथ पश्चिम-उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हुए बिंदु 28.4644, 77.0144 (गीता भवन मंदिर) तक, तत्पश्चात् न्यू कॉलोनी की दक्षिण-पूर्वी सीमा की ओर बढ़ते हुए मेन मदनपुरी रोड के साथ प्रारंभिक बिंदु (28.4672, 77.0209) तक। इस वार्ड में राम नगर, अर्जुन नगर, विजय पार्क, नेहरू लेन, मदनपुरी, ज्योति पार्क पूर्व आदि शामिल हैं।

**वार्ड नं० 31 :-** प्रारंभिक बिंदु 28.4808, 77.0146 (चिन्तपूर्णी माता मंदिर चौक), तत्पश्चात् उत्तर-पूर्व दिशा को ओर बढ़ते हुए बिंदु 28.4765, 77.0177 तक, तत्पश्चात् दक्षिण की ओर बढ़ते हुए दयानंद कालोनी की उत्तरी-पूर्वी सीमा के साथ सेक्टर 5 रोड पर बिंदु 28.4763, 77.0213 तक, तत्पश्चात् गुडगांव गाँव की रिहायशी सीमा के साथ दक्षिण की ओर बढ़ते हुए सिंघा चौक (28.4742, 77.0296) तक, तत्पश्चात् सेक्टर -12 रोड के साथ दक्षिण की ओर बढ़ते हुए बिंदु 28.4684, 77.0272 तक, तत्पश्चात् न्यू रेलवे रोड पर पूर्वी-दक्षिणी दिशा की ओर बढ़ते हुए बिंदु 28.4656, 77.0288 तक, तत्पश्चात् इंद्रा पुरी कॉलोनी की सीमा के साथ दक्षिण की ओर बढ़ते हुए बिंदु 28.4623, 77.0237 (शिव मूर्ति चौक), तत्पश्चात् पुराने रेलवे रोड पर दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते हुए प्रेम नगर-1, नई बस्ती, प्रताप नगर की पूर्वी-दक्षिणी सीमा के साथ बिंदु 28.4651, 77.0219 नजदीक प्रेम मंदिर तक, तत्पश्चात् पुराने रेलवे रोड पर पश्चिम-उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हुए बिंदु 28.4672, 77.0209 (न्यू कॉलोनी मोड़) तक, तत्पश्चात् रत्न गार्डन की दक्षिणी-पश्चिमी सीमा के साथ बिंदु 28.4699, 77.0195 नजदीक आर्यन अस्पताल तक, तत्पश्चात् पुराने रेलवे रोड पर उत्तरी दिशा की ओर बढ़ते हुए प्रारंभिक बिंदु 28.4808, 77.0146 (चिन्तपूर्णी माता मंदिर चौक) तक। इस वार्ड में दयानंद कॉलोनी, अशोक पुरी, महावीर पुरा, जवाहर नगर, सुभाष नगर, प्रेम नगर-1, नई बस्ती, प्रताप नगर, रत्न गार्डन, भीम नगर आदि शामिल हैं।

**वार्ड नं० 32 :-** प्रारंभिक बिंदु 28.4737, 77.018 जो कि सेक्टर 4/7 चौक है, तत्पश्चात् पुराने रेलवे रोड पर पूर्वी-दक्षिणी दिशा की ओर बढ़ते हुए बिंदु 28.4699, 77.0195 नजदीक आर्यन अस्पताल तक, तत्पश्चात् शिवपुरी कॉलोनी की पूर्वी-दक्षिणी सीमा और न्यू कालोनी की उत्तरी-पूर्वी सीमा की ओर बढ़ते हुए गीता भवन मंदिर रोड (28.4625, 77.0158) तक, तत्पश्चात् गीता भवन रोड पर गीता भवन मंदिर की ओर बढ़ते हुए (28.4644, 77.0144) तक, तत्पश्चात् दक्षिणी-पश्चिमी दिशा की ओर बढ़ते हुए ज्योति पार्क ईस्ट कॉलोनी की सीमा के साथ बिंदु 28.4612, 77.0138 तक, तत्पश्चात् दक्षिणी-पश्चिमी दिशा की ओर बढ़ते हुए ज्योती पार्क पश्चिम, सेक्टर-7 एक्सटेंशन, हाउसिंग बोर्ड, फिरोज गांधी कॉलोनी-2 की सीमा के साथ बिंदु 28.4676,

77.0013 तक जोकि नजदीक ईएसआई अस्पताल के पास सेक्टर-9/ 9 ए का विभाजन सड़क है, तत्पश्चात् पश्चिम-उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हुए सूर्या विहार कॉलोनी की दक्षिणी-उत्तरी सीमा के साथ सेक्टर-9 चौक (28.469, 77.0055) तक, तत्पश्चात् सेक्टर 4/7 के विभाजन सड़क के साथ आगे बढ़ते हुए प्रारंभिक बिंदु (28.4737, 77.018) तक। इस वार्ड में सेक्टर-7, शिवपुरी, न्यू कॉलोनी, कृष्णा कॉलोनी, ज्योति पार्क, सेक्टर-7 एक्सटेंशन, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, फिरोज गांधी कॉलोनी-II, सूर्या विहार आदि शामिल हैं।

**वार्ड नं० 33 :-** प्रारंभिक बिंदु 28.4737, 77.018 से शुरू होकर, जो सेक्टर 4/7 चौक है, तत्पश्चात् दक्षिण-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुए सेक्टर 4/7 डिवाइडिंग रोड के साथ सेक्टर 9 चौक (28.469, 77.0055) तक, तत्पश्चात् पश्चिमी-उत्तरी दिशा की ओर सेक्टर-4/9 डिवाइडिंग रोड जोकि सेक्टर-4 और लक्ष्मण विहार फेज -2 की दक्षिणी सीमा पर अनुछेदित रेलवे लाइन बिंदु (28.4772, 77.0009) तक, तत्पश्चात् लक्ष्मण विहार कॉलोनी की उत्तरी सीमा के साथ रेलवे लाइन बिंदु (28.4891, 77.0107) तक तत्पश्चात् दक्षिण-पूर्व दिशा की ओर न्यू रेलवे रोड के साथ प्रारंभिक बिंदु (28.4737, 77.018) पर मिलती है। इस वार्ड में लक्ष्मण विहार फेज-1, लक्ष्मण विहार फेज-2, सेक्टर-4, कैनकॉन एनक्लेव आदि शामिल हैं।

**वार्ड नं० 34 :-** प्रारंभिक बिंदु 28.483, 77.0056 सूरत नगर फेज-1 की दक्षिणी सीमा से शुरू होकर, तत्पश्चात् उत्तरी दिशा में बढ़ते हुए रेलवे लाइन पर बिंदु (28.3952, 77.0162) तक, तत्पश्चात् दक्षिणी दिशा में गांव सराय अलावर्दी और पावला खुसरपुर की राजस्व सीमा से एन.पी.आर रोड (द्वारका एक्सप्रेस वे) पर बिंदु (28.4992, 77.0014) तक, तत्पश्चात् गांव दौलताबाद की पूर्वी दिशा के साथ एन.पी.आर रोड (द्वारका एक्सप्रेस वे) पर जहां गांव गुरुग्राम-धनवापुर-टीकमपुर की राजस्व सीमा त्रिसंगम पर बिंदु (28.4857, 76.9921) पर मिलती है तक, तत्पश्चात् उत्तर में धनवापुर-बजधेड़ा रोड से बिंदु (28.4834, 76.9986) तक तत्पश्चात् सूरत नगर फेज-1 की दक्षिणी सीमा जोकि प्रारंभिक बिंदु (28.483, 77.0056) पर मिलती है। इस वार्ड में राजेन्द्रा पार्क, दौलताबाद इंडस्ट्रियल एरिया, टेक चंद नगर, सूरत नगर फेज-1 आदि शामिल हैं।

**वार्ड नं० 35 :-**प्रारंभिक बिंदु (28.4891, 77.0107), तत्पश्चात् दक्षिण दिशा की ओर आगे बढ़ते हुए बिंदु (28.483, 77.0056), तत्पश्चात् सूरतनगर फेस-1 की सीमा के साथ उत्तर-पश्चिमी दिशा की ओर आगे बढ़ते हुए बिंदु (28.4865, 77.0025) तक, तत्पश्चात् धनवापुर रोड के साथ दक्षिण-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए बिंदु 28.4834, 76.9986), (गोदरेज समिट कालोनी के पास) तक, तत्पश्चात् गुडगाँव गाँव की दक्षिणी राजस्व सीमा के साथ पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ते हुए बिंदु (28.4857 76.9921), जोकि गाँव गुडगाँव, धनवापुर और टिकमपुर की राजस्व सीमा के त्रिसंगम पर मिलते हैं तक, तत्पश्चात् उत्तर-पश्चिमी सड़क के साथ उत्तर दिशा में और दौलताबाद गाँव की पूर्वी सीमा के साथ आगे बढ़ते हुए बिंदु (28.4992, 77.0014), तत्पश्चात् गाँव पवाला खुसरपुर और सराय अलावर्दी की दक्षिणी राजस्व सीमा के साथ पूर्व दिशा में आगे बढ़ते हुए प्रारंभिक बिंदु (28.4891, 77.0107) तक। इस वार्ड में भीमगढ़ खेड़ी फेस - 1, 2 व 3, अशोक विहार, अशोक विहार- 2, अपना एन्क्लेव, सेक्टर -5, सेक्टर -6 ( भाग ) आदि शामिल हैं।

**वार्ड नं० 36 :-** प्रारंभिक बिंदु (28.4815, 77.0495) जोकि लेफ्टिनेंट अतुल कटारिया चौक है, तत्पश्चात् शीतला माता रोड के साथ दक्षिण-पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ते हुए बिंदु (28.4786, 77.0354) जोकि सी.आर.पी.एफ. कैम्प चौक है, तत्पश्चात् शीतला कालोनी ब्लॉक-ए और बी की सीमा के साथ उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ते हुए बिंदु (28.4803, 77.0272) तक, तत्पश्चात् शीतला माता रोड के साथ पूर्व दिशा में आगे बढ़ते हुए बिंदु (28.4789, 77.0324) तक, तत्पश्चात् गुडगाँव गाँव की फिरनी के साथ दक्षिण दिशा में आगे बढ़ते हुए बिंदु 28.481, 77.0325) तक, तत्पश्चात् शीतला माता रोड के साथ उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ते हुए बिंदु (28.4929, 77.0199) जोकि न्यू सम्राट गार्डन के सामने स्थित है, तत्पश्चात् भीमगढ़ खेड़ी और अशोक विहार फेस-2 की उत्तरी सीमा के साथ दक्षिण-पश्चिमी दिशा की ओर बढ़ते हुए बिंदु (28.4932, 77.0144) जोकि रेलवे लाईन पर स्थित है, तत्पश्चात् शीतला उत्तर-पूर्वी दिशा में आगे बढ़ते हुए बिंदु (28.4952 77.0162) तक, तत्पश्चात् शीतला गुडगाँव-बादशाहपुर की निर्वाचन क्षेत्र की सीमा और शीतला माता रोड पर दक्षिण-पूर्वी दिशा में आगे बढ़ते हुए बिंदु (28.5021 77.0289) जोकि कृष्णा चौक है, शीतला गुडगाला रोड के साथ दक्षिण दिशा की ओर आगे बढ़ते हुए बिंदु (28.4936 77.0316) जोकि गाँव गुडगाँव, चौमा और कार्टरपुरी की राजस्व सीमा का त्रिसंगम है। तत्पश्चात् गांव चौमा और कार्टरपुरी की दक्षिणी सीमा के साथ उत्तर-पूर्वी दिशा में आगे बढ़ते हुए और इनायतपुर की उत्तरी राजस्व सीमा के साथ आगे बढ़ते हुए बिंदु (28.4937 77.0598) (मारुती गेट नं० 2), तत्पश्चात् पुरानी दिल्ली रोड के साथ दक्षिण दिशा की ओर आगे बढ़ते हुए प्रारंभिक बिंदु (28.4815, 77.0495) पर मिलती है जोकि लेफ्टिनेंट अतुल कटारिया चौक है। इस वार्ड में अशोक विहार चरण-3, शीतला कॉलोनी, गुडगाँव गांव और अमनपुरा आदि शामिल हैं।

विकास गुप्ता,  
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,  
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

**HARYANA GOVERNMENT**  
**URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT**

**Notification**

The 26th August, 2023

**No. 19/45/2023-6C1.**— In exercise of the powers conferred under Rule 9 of the Haryana Municipal Delimitation of Ward Rules, 1994 and in supersession of all previous orders/notifications issued in this behalf, the Governor of Haryana hereby publishes the following proposal for the delimitation of the wards of **Municipal Corporation, Gurugram, District Gurugram** as specified in the schedule given below for information of the persons likely to be affected thereby.

Notice is hereby given that the draft of notification shall be taken into consideration by the State Government on or after the expiry of period of ten days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, together with objections and suggestions, if any, which may be received by the Commissioner and Secretary to Government, Haryana, Urban Local Bodies Department/ Director, Urban Local Bodies Department through **Deputy Commissioner, Gurugram** from any person in respect of the draft notification before the expiry of the period so specified :—

**SCHEDULE OF BOUNDARIES**

**Ward No. 01:** Starting from point 28.514, 77.0931 situated on NH-48 on the Delhi-Haryana Border and along the Municipal Corporation Gurugram limit, then moving towards the East then Southwards to meet onto the Northern tip of boundary of the revenue estate of village Nathupur along the Delhi-Haryana Border (28.4959, 77.1211) thereafter moving South along the border and then along the Eastern edge of the boundary of revenue estate of village Sikanderpur Ghosi thence moving along the Southern edge of this boundary till Aravali Hills up to the south-east corner of the revenue limit of Sikanderpur Ghosi (28.4711, 77.1136) and then moving North-west along the Northern boundary of DLF Phase-1 Block G, till lane-G17 up to the North-Western boundary of Silver Oak Apartment thereafter moving South via Kusum Marg on Gurugram-Faridabad Road in front of Qutub Plaza which meets at point 28.4725, 77.1028 situated on Gurugram-Faridabad Road and then moving along Gurugram-Faridabad Road where Raghvendra Marg (Golf Course Road) and Gurugram-Faridabad Road intersect (28.4787, 77.094) then moving North-East direction on Raghvendra Marg up to the point Rapid Metro Station Sikanderpur Ghosi (28.4816, 77.0944) then moving towards West direction on MG Road up to the point 28.4806, 77.0893, thence moving towards North direction along the boundary of Block-J & Q of DLF Phase-2 up to the point 28.4874, 77.0933 near Rapid Metro Station DLF Phase-2, thence moving North-West direction on Raghvendra Marg Road along with the boundary of Belvedere Towers (28.4919, 77.0909), thence moving towards North – West direction on Raghvendra Marg up to Cyber Hub near Shankar Chowk (28.4983, 77.0889) and then north-east along NH-48 to the limits of Municipal Corporation Gurugram and Delhi-Haryana Border 28.514, 77.0931 which is the starting point. This ward includes Nathupur Village, Nathupur Part, DLF Phase-3, National Media Centre, Ambience Island, Garden Estate, DLF Corporate Park, Village Sikanderpur Ghosi, Aravali Hills Sikanderpur Ghosi, Global Business Park, Block-J & Q of DLF Phase-2 and Belvedere Towers etc.

**Ward No. 02:** Starting from point 28.514, 77.0931 which lies on NH-48 at Delhi-Haryana Border and Municipal Corporation Gurugram limit, then moving towards Jaipur on the NH-48 till the point where Shankar Chowk (28.4983, 77.0889) and then moving towards South-East on Raghvendra Marg up to point 28.4919, 77.0909, thence moving towards North-West direction along the boundary of Belvedere Towers up to the point 28.4874, 77.0933, near Rapid Metro Station DLF Phase-2, thence moving towards South-West direction along the boundary of Block-J & Q of DLF Phase-2 up to the point 28.4806, 77.0893, thence moving towards South-East direction up to the point Rapid Metro Station Sikanderpur Ghosi (28.4816, 77.0944), thence moving South-West direction on Gurugram-Faridabad Road till point 28.4787, 77.094, which connects on the Southern revenue boundary of village Sikanderpur Ghosi i.e. from behind the Bristol Hotel. Then moving along the Southern boundary of revenue estate of village Sikanderpur Ghosi and continuing on the same line to the Southern boundary of revenue estate of village Sarhol up to the point 28.4785, 77.0809 which lies on the revenue estate of village Sarhol thereafter moving North-West till MG Road Metro Station (28.4790, 77.0788) and then moving from behind the Beverly Park-1 (Condominium Complex) and thence proceeding along M.G. Road from the point 28.4786, 77.0739, passing behind Delta Square building and crossing National Highway No. 48 and then from the point 28.4793, 77.0707 moving along the Sector-17/18 dividing road up to the point 28.4891, 77.0559, which then moves towards North-East along the Old Delhi Road till the Hanuman Mandir Chowk (28.5112, 77.0744), then moving West-Northwards along the Phirni of village Dundahera up to Eastern corner of Sector-21 and Western corner of Surya Vihar (28.5188, 77.0749), thence moving towards East along with Northern boundary of Surya Vihar and Delhi-Haryana Border up to Old Delhi Road

near IOC Petrol Pump (28.5182, 77.0806), thence moving Eastern-Southern boundary along with Udyog Vihar, Phase-I & III towards starting point 28.514, 77.0931. This ward includes DLF Cyber Hub, DLF City Phase-2 (Part), Mall Road area, Beverly Park-1 (Condominium Complex), Village Sarhaul, MarutiUdyog, UdyogVihar Phase-I, II, III, IV & V, Village Dundahera and Surya Vihar etc.

**Ward No. 03:** Starting point Shakti Mandir More (28.503, 77.0574) towards North-East direction up to point 28.5094, 77.0628, thence moving West and then Northwards till the point 28.5122, 77.0613 where it meets with the Northern revenue estate boundary of village Carterpuri along the Haryana-Delhi Border up to Eastern corner of Sector-21 and Western corner of Surya Vihar (28.5188, 77.0749) thence moving towards South-West along the Phirni of village Dundahera up to the Old Delhi Road till the Hanuman Mandir Chowk (28.5112, 77.0744), thence moving towards Southern-Western along Old Delhi Road up to the point Maruti Company Gate No. 2 (28.4937, 77.0598) which lies on the North-Eastern boundary of revenue estate of village Inayatpur, then moving along the Northern and Eastern boundary of revenue estate of village Inayatpur and then on to the Southern boundary of revenue estate of village Carterpuri and village Choma where it meets the tri-junction point 28.4936, 77.0316 of boundary of revenue estates of villages Gurgaon, Choma and Carterpuri, thence from this point moving Northwards along the Gaushala Road up to the point 28.5021, 77.0289, which is Krishna Chowk, and thence moving Eastward up to the point 28.5038, 77.0363 near Sarv Haryana Gramin Bank, thence moving towards North-East direction along with the boundary of Carterpuri village and Northern boundary of PalamVihar Extension till the Starting point Shakti Mandir More (28.503, 77.0574). This ward includes Village Carterpuri, Noble Enclave, Gurgaon One Apartment, Palam Vihar Extn. Village Mollahera, Sector-22 Pocket-A, Sector-22 Pocket B, Chippy Colony and Sector-21 etc.

**Ward No. 04:** Starting from point 28.5254, 77.0417 which lies along the Railway Line connecting Delhi and Gurugram at the State Borders, thence moving Eastwards along the Delhi-Haryana Border with the revenue estate boundary of villages Choma and Carterpuri up to the point 28.5122, 77.0613 and then moving South and East up to the point 28.509475, 77.062816 and thence moving South-West along the Shri Shakti Mandir Marg up to the point 28.503, 77.0574 where it intersects the Major SushilAima Marg, and then moving Westward along the Northern boundary of PalamVihar Extension and habitation boundary of village Carterpuri up to the point 28.5038, 77.0363 near Sarv Haryana Gramin Bank, thence moving Westwards up to the point 28.5021, 77.0289, which is Krishna Chowk, thence moving Southwards along the Rejangla Road up till the point 28.4936, 77.020 which is the point of intersection of Rejangla Road with revenue estate boundary of village Gurgaon, thence moving along this boundary up till the point 28.4952, 77.01620 on the Railway Line thereafter moving North-East along the Railway Line towards Delhi where it meets the starting point 28.5254, 77.0417. This ward includes Sector-23, PalamVihar Sector- 1, 2, 3 and village ChomaKhera, Sector-23A etc.

**Ward No. 05:** Starting from point 28.5254, 77.0417 which lies along the Railway Line connecting Delhi and Gurugram, and moving Southwards up till the point 28.4952, 77.01620 on the Railway Line, then moving on the southern boundary of revenue estate of villages Sarai Alawardi and Pawala Khusrupur, up to the point 28.4978, 77.0052 on Northern Peripheral Road (Dwarka Expressway), thence moving Northward along the Northern Peripheral Road (Dwarka Expressway) up to point 28.5123, 77.0179 where it is intersected by the Sector-109/112 dividing road, thence moving Westward along the Sector-109/112 dividing road up to the point 28.5174, 77.013, where it meets the Delhi-Haryana State Border, thence moving towards Northern-Eastern along Delhi-Haryana State Border up to the Northern boundary of village Bajghera and North-East boundary of revenue estate of village Bajghera and North - East boundary of village Choma up to the point 28.5254, 77.0417, which is the starting point. This ward includes Sector-109, Sector-110, Sector-110A, Sector-111, Sector-112, Sector-113, Sector-114, Sector-115, New PalamVihar Phase-1, 2, 3, Nihal Colony, village Sarai Allawardi and village Bajghera etc.

**Ward No. 06:** Starting from point 28.5174, 77.013, where it meets the Delhi-Haryana State Border where sector 109/112 dividing road, then move towards south eastern direction along with sector dividing road of sector 109/112 upto the point where meets the Northern Peripheral Road (Dwarka Expressway) (28.5123, 77.0179) then moving Southwards along the Northern Peripheral Road (Dwarka Expressway) up to the point 28.4978, 77.0052, thence moving towards the Eastern boundary of revenue estate of village Daultabad along the Northern Peripheral Road (Dwarka Expressway) till the point where the Southern boundary of revenue estate of village Dhankot cuts Northern Peripheral Road (Dwarka Expressway) (28.4523, 76.961) where it connects with the Sector-99/99A dividing road, then moving Northward till the Farukhnagar-Gurugram-Jhajjar Road (28.4723, 76.9497) then moving West on this road up till the Western boundary of revenue estate boundary of Village Dhankot, thereon moving along the boundary of revenue estate boundary of Village Dhankot along the Delhi-Haryana State Borders with the Western Border of revenue estate of villages Dhankot, Kherki Majra Dhankot, Daultabad and Dharampur then moving along the Northern and Eastern boundary of revenue estate of village Dharampur (28.5212, 76.9785) then on to the Northern-Eastern boundary of revenue estate of village Babupur, along the Delhi-Haryana State Border up to the starting point 28.5174, 77.013. This ward includes Sector-102, Sector-102A, Sector-103, Sector-106, Sector-107,

Sector-108, Sector-109, village Daultabad, village Pawala Khusrupur, village Kherki Majra, village Mohammadheri, village Dhankot, village Babupur and village Dharampur etc.

**Ward No. 07:** Starting from point 28.4830, 77.0056 of Southern border of Surat Nagar Phase-I then moving towards Gurugram along the railway line till the point 28.4674, 76.9882 DronKunj CGHS Apartment, thence moving towards Eastern-Southern along the dividing road of Sector-9 & 9B up to the point 28.4575, 76.9904, thence moving towards West along the Gurugram-Farrukhnagar Road up to the Phirni of village Basai (28.4577, 76.9848), then moving Southern boundary of Basai Enclave-Part-I & II and Kadipur Industrial Area up to the point 28.446, 76.9917, where meets Gurugram-Pataudi Road, then moving Southern-Western along Pataudi Road up till point 28.4427, 76.9847, thence moving South-East up till point 28.4347, 76.9919 along boundary of Saraswati Enclave, thence moving along the Badshahpur Drain in Southwards and Westwards and then moving North-Westwards towards the habitation (Phirni) of village GaroliKhurd, thence Southern-Western along Pataudi Road up till point 28.4385, 76.976 intersection of Pataudi-Gurugram Road and Northern Peripheral Road, thence moving towards North side along the Northern Peripheral Road till the point where the Southern boundary of revenue estate of village Dhankot cuts Northern Peripheral Road (Dwarka Expressway) (28.4523, 76.961) where it connects with the Sector-99/ 99A dividing road, then moving towards Northern side along the Northern Peripheral Road eastwards along the northern boundary of Revenue Estate of Village Dhanwapur up to the point 28.4857, 76.9921, which lies on Dhanwapur-Bajghera Road, then moving east on the Dhanwapur-Bajghera Road till the point 28.4834, 76.9986 which then moves along the southern boundary of Surat Nagar Phase-I upto starting point 28.4830, 77.0056. This ward includes Surat Nagar Phase-II, Ram Vihar, village Dhanwapur, village Basai, village Gadauli Khurd, village Gadauli Kalan, Sector-9B, Sector-37B, Sector-37C, Sector-37D, Sector-100, 101 & 104 etc.

**Ward No. 08:** Starting from point 28.4575, 76.9904 on Basai Chowk then moving Northward along the Shaheed Sukhbir Yadav Marg road where it meets the point 28.4674, 76.9882 on the Gurugram-Rewari Railway Line, thence moving North-Eastwards along the Railway Line along the North-Western border of Sector-9A till the point 28.4748, 76.9989, thence moving in the South-East direction along the boundary of Surya Vihar and Sector-9A, thence passing through the point 28.4676, 77.0013 on sector dividing road of Sector-9/9A, thence along the North-Eastern boundary of Sector-9 and Southern-Eastern boundary of Firoz Gandhi Colony-II, Sector-7 Housing Board, Jyoti Park, Devilal Colony & Ravi Nagar up to the point 28.457, 77.0079 near Enkay Factory, thence towards Southern-Western side along Basai Road up to the point 28.4573, 76.9964, then towards Southern boundary of Govt. Hospital Sector-10 along Northern boundary of Alpine Convent School up to the starting point 28.4575, 76.9904 on Basai Chowk. This ward includes Sector-9, Sector-9A, Bhawani Enclave, Ambedkar Nagar, Devilal Colony, Ravi Nagar, Vishwakarma Colony etc.

**Ward No. 09:** Starting from point 28.457, 77.0079 near Enkay Factory thence moving towards Southern-Eastern boundary of Krishna Nagar Sector-10 along the Constituency boundary of Gurugram-Badshahpur up to the point Pataudi Road 28.4518, 77.0066 near Rotary Club Blood Bank, thence moving towards Southern-Western side along the Pataudi Road and Phirni of village Kadipur up to the point 28.448280, 76.997271 Captain Umang Bhardwaj Chowk, thence moving towards Eastern-Southern side along the Shaheed Sukhbir Singh Yadav Marg leading to point 28.4359, 77.0102 which is Eklavya Marg (Hero Honda Chowk), then moving Southwards towards Jaipur along National Highway-48 up till point 28.4244, 77.0005, thence moving towards Southern boundary revenue estate village Khandsa up to the point 28.4306, 76.9884, then towards Northern side of Pace City and moving along Southern boundary of Saraswati Enclave up till point 28.4427, 76.9847, then moving Northern-Eastern along Pataudi Road up till point Kadipur Industrial Area up to the point 28.446, 76.9917, then moving Southern boundary of Kadipur Industrial Area and Basai Enclave-Part-I & II up to the point 28.4577, 76.9848 (phirni of village Basai), thence moving towards East along the Gurugram-Farrukhnagar Road up to the point 28.4575, 76.9904, thence moving Northern boundary of Alpine Convent School along the point 28.4573, 76.9964, which is Govt. Hospital Sector-10, thence moving Eastern-Southern along Basai Road up to the starting point 28.457, 77.0079. This ward includes Krishna Nagar, Sector-10, Vikas Nagar, Basai Enclave-I, Basai Enclave-II, Kadipur Enclave, Kadipur Industrial Area, Saraswati Enclave, Pace City-II, Udyog Vihar Phase-VI, village Khandsa etc.

**Ward No. 10:** Starting from Pataudi Road 28.4518, 77.0066 near Rotary Club Blood Bank, thence moving towards South-Western boundary of Gandhi Nagar and North-Eastern boundary of Shakti Park and Hari Nagar up to the point 28.4441, 77.0171, then moving towards Jaipur along the highway up to along the point 28.4359, 77.0102, which is Eklavya Chowk (Hero Honda Chowk), thence in North-West direction on to Shaheed Sukhbir Singh Yadav Marg till point 28.448280, 76.997271 (Captain Umang Bhardwaj Chowk), thence moving towards Northern-Eastern boundary of village Kadipur Phirni along the Pataudi Road up to the Pataudi Road 28.4518, 77.0066, which is starting point. This ward includes village Kadipur, Shakti Park, Hari Nagar, Pace City-I, Sector-10A, Old Industrial Area Khandsa Road etc.

**Ward No. 11:** Starting point from Rajiv Chowk (28.4456, 77.0336), then moving towards South on Sohna Road along Western-Northern boundary of village Islampur up till Subhash Chowk (28.4287, 77.037), thence moving towards North-East direction on the sector dividing road of Sector-38/ 47 up to Bakhtawar Chowk (28.4347, 77.0493), thence moving towards Southern-Eastern direction on the sector dividing of Sector-46/ 47 up to Vikas Marg (28.4274, 77.0581), thence moving towards Northern-Western boundary of Mayfield Garden up to the point 28.4247, 77.0553, thence moving towards Southern boundary of Malibu Towne along sector dividing road of Sector-47/ 49 and passing the boundary of Block-A1, South City-II up to the point 28.4172, 77.0404 intersection of Sector-47/ 49 road (Mahashay Hansram Marg), thence moving towards South direction up to the point 28.4134, 77.0415 (North-East boundary of Uppal Southend), thence moving towards along the revenue estate of village Teekri and passing the Badshahpur Drain up to the point 28.4264, 77.0276 (Netaji Subhash Marg), thence moving towards Western-Northern along Netaji Subhash Marg Road up to the point 28.4359, 77.0102 which is Eklavya Marg (Hero Honda Chowk), thence moving towards North-East direction on NH-48 up to the point 28.4441, 77.0171 (Hari Nagar), thence moving towards Eastern-Southern boundary of Rajiv Colony with Constituency boundary of Gurugram-Badshahpur up to North-West Corner of Hans Enclave (28.4481, 77.0243), thence moving towards South-East direction on NH-48 up till Rajiv Chowk (28.4456, 77.0336), which is starting point. This ward includes Hans Enclave, Naharpur Rupa, Nitin Vihar, Shiv Colony, Wireless Station Jharsa, Infocity-II, village Teekri, Malibu Towne, Sector-47, Sector-33 etc.

**Ward No. 12:** Starting point 28.4456, 77.0336, which is Rajiv Chowk, then moving towards North-East direction on NH-48 up till point 28.4519, 77.0419, which is Jharsa Chowk, thence moving towards South-East direction passing through sector-32A forming outer boundary of Prem Puri, thence continue on sector dividing road of Sector-31/40 and also Northern-Eastern boundary of Mohyal Colony along Jharsa Road up to the point 28.444, 77.0583, where it intersects the Netaji Subhash Marg, thence moving towards sector dividing road of Sector-39/46 up till point 28.4287, 77.037, which is Subhash Chowk, thence moving Sohna Road along Western-Northern boundary of village Islampur continuing Sohna Road up to starting point 28.4456, 77.0336. This ward includes Sector-32, village Jharsa, Mohyal Colony, Prem Puri Jharsa, Medicity, Sector-38, Sector-39, village Islampur etc.

**Ward No. 13:** Starting point from Rajiv Chowk (28.4456, 77.0336), thence moving towards North-West on Civil Lines road upto the point (28.4515, 77.0309) near New PWD Rest House, thence moving towards along with the constituency boundary of Gurugram and Badshahpur with Bandh Road then move from North-East corner of Sector-15 Part-2 move towards South-East with the boundary of sector-15 Part-2 towards NH-48 (28.4598, 77.0495), near Unitech Signature Tower-II then moving South-East Direction with the boundary of Sector-31 thence moving towards South-East with the Constituency boundary of Gurugram and Badshahpur till South City-I (28.4568, 77.0704), thence moving towards South-West Direction with Arya Samaj Marg (28.4501, 77.0642), thence moving towards South-East Direction along with the boundary of the colony of Greenwood City up to the point 28.4416, 77.056, thence moving towards North-East Direction on Arya Samaj Road up to the point 28.444, 77.0583 near Unitech Cyber Park, thence moving towards North-West Direction along with Sector-39,40 dividing road, then moving along with the boundary of Mohyal Colony upto the point (28.4492, 77.0509) (Rani Avanti Bai Marg), thence moving towards South-West direction along with the boundary of Jharsa Village, Prem Puri Jharsa up to the point 28.4519, 77.0419 which is Jharsa Chowk, thence moving towards South-West Direction on NH-48 upto the starting point (28.4456, 77.0336). This Ward includes Sector-15 -I & Sector-15 -II, Kirti Nagar, Sector-31, Sector-32A, Sector-40, Greenwood City, Part of the South City-I etc.

**Ward No. 14:** Starting point from Bakhtawar Chowk (28.4347, 77.0493), and then move towards North-East with Netaji Subhash Chand Marg up to the point 28.4416, 77.056, then towards South-East along with the boundary of Greenwood City, thence moving towards North-East till sector dividing road of Sector-45/46 up to the point 28.437, 77.0673, thence moving towards North-East along with the boundary of Indira Colony Part-I & Part-II up to the point 28.4305, 77.0711, thence moving towards South-East direction along with the Constituency boundary of Gurugram & Badshahpur upto the point 28.4118, 77.0838 where it meets tri-junction of boundary of revenue estates of Villages Ghata, Tigra & Nangli Umarpur, thence moving towards North-West direction along with the boundary of revenue estate of Tigra Village upto the Golf-Course Road (28.4124, 77.0746), thence moving towards North-West direction along with the Western boundary of Mayfield Garden, Sector-50 upto the point (28.4228, 77.054) thence moving towards along with the boundary of Mayfield Garden, Sector-47 upto the point (28.4274, 77.0581), upto the T-Point of Vikas Marg, thence moving towards North-West direction on Sector dividing road of Sector-46/47 upto the starting point (28.4347, 77.0493). This ward includes Jal Vihar Colony, Sector-46, Indira Colony-I & II, Sector-51, Sector-51 Mayfield Garden, Sushant Lok-III, Sushant Lok -III (Ext.), Tigra Village, Sector-57, Mayfield Garden Sector-50.

**Ward No. 15:** Starting point from (28.4172, 77.0404), thence moving towards East direction along with South-Eastern boundary of Malibu Towne which meets the Western boundary of Mayfield Garden upto point (28.4217, 77.0546), thence moving towards along with Western boundary of Mayfield Garden towards

South-East direction up to the point 28.4156, 77.0706, thence moving towards South-East direction upto the Golf-Course Road (28.4124, 77.0746), thence moving towards South-East direction on Golf-Course Road afterwards revenue estate of village Tigra upto the point 28.4118, 77.0838, where it meets tri-junction of boundary of revenue estates of Villages Ghata, Tigra & Nangli Umarpur, thence moving towards Southern direction along with the revenue estates of Villages Nangli Umarpur, Maidawas & Dhumaspur up to the point 28.3835, 77.0666 near IREO Corridors Tower A-9, where it meets the revenue estate of villages Dhumaspur, Maidawas and Badshahpur, thence moving towards North-West direction along with the Northern boundary of Village Badshahpur up to the point 28.3966, 77.0518, near Hanuman Mandir, thence moving towards West-North direction along with the Habitation of Badshahpur Village and afterwards on Sohna road upto the Vatika Chowk (28.4013, 77.0449), thence moving towards North-East direction on Southern Peripheral Road afterwards moving along with the East-Northern boundary of Uppal Southend upto the point CD Chowk (28.4117, 77.042), then moving towards Northern direction on Sohna-Gurugram NH-248 upto the starting point 28.4172, 77.0404. This ward includes Part of Malibu Town, South City-II, Sector-49,50, Nirwana Country, Rosewood City, Sector-65-66, Village Nangli Umarpur, Maidawas & Dhumaspur and village Ghasola etc.

**Ward No. 16:** Starting point from Vatika Chowk (28.4013, 77.0449), and moving towards West with Southern Peripheral Road (SPR) till the point Baba Jaharvir Goga ji Chowk (28.4025, 77.0005), thence moving towards North-East direction and approaching towards the South-West corner of Abadi boundary of Begumpur Khatola village and moving along with abadi boundary of Begumpur Khatola up to the point 28.4203, 77.0099, thence moving along with 30 mtr. road towards North-West direction and approaching towards National Highway-48 (28.4244, 77.0005), thence moving towards North-East direction on NH-48 upto the Eklavya Marg (28.4359, 77.0102), thence moving towards South-East direction on Netaji Subhash Marg up to the point 28.4264, 77.0276, thence moving towards along with the revenue estate Village Teekri and passing the Badshahpur Drain up to the point 28.4134, 77.04151 (North-East boundary of Uppal Southend), thence moving along with NH-248 up to the point C.D. Chowk (28.4117, 77.042), thence moving towards South-Eastern direction along with the East-Northern boundary of Uppal Southend afterwards moving on Western direction along with Southern Peripheral Road upto the starting point, which is Vatika Chowk (28.4013, 77.0449). This ward includes Fazilpur Jharsa, Sector-71, 73, 74, Sector-34, Behrampur Village, Sector-72A, Uppal Southend etc.

**Ward No. 17:** Starting point from North-East corner point (28.4244, 77.0005), thence moving towards South-East along with 30 mtr. Wide road towards Begumpur Khatola up to the point 28.4203, 77.00998, thence moving along with abadi boundary of Begumpur Khatola approaching towards Eastern boundary of Sector-35 and moving along with Eastern boundary of Sector-35 and move towards South-West direction towards Southern Peripheral Road (SPR) and meet at SPR upto the point Baba Jaharvir Goga ji Chowk (28.4025, 77.0005), thence moving along with SPR towards East direction till Maharana Partap Chowk (28.4009, 77.0162), thence moving towards South-West directional along with sector dividing road of Sector-75/70 up to the point 28.3949, 77.0146, after that move towards East direction up to the point 28.3945, 77.0208 near GPL Eden Heights and thence moving towards South direction which meets at the North-East boundary of village Palra and thence moving towards along with revenue estate boundary of village Palra up to the point 28.3821, 77.0128, where meets the revenue estate boundary village Palra and Darbaripur, thence moving along with Southern boundary of Village Darbaripur and Eastern boundary of Sector-76 as well as Northern boundary of Village Kherki Daula up to the point 28.4015, 76.9877, thence moving towards South direction on NH-48 up to the point 28.3971, 76.9833, where intersect the Northern Peripheral Road (NPR), then moving towards North-West direction along with NPR up to the point 28.430053, 76.961300, which intersect Gurugram-Pataudi road, thence moving North-East direction on Gurugram-Pataudi Road upto the point 28.4382, 76.976 near Prachin Hanuman Mandir, thence moving Eastern direction along with Phirni of Village Gadauli Khurd and passing the Badshahpur drain upto the point 28.4332, 76.9907, thence moving towards Southern direction of Pace City up to the point 28.4306, 76.98848, thence moving towards Southern boundary of Village Khandsa up to the point 28.4244, 77.0005, which is the starting point. This ward includes Mohammadpur Jharsa, Narsingpur, Begumpur Khatola, Sector-74A, 75A, Sector-75, Village Kherki Daula, Village Sihi, Village Darbaripur, Village Palra etc.

**Ward No. 18:** Starting point from Vatika Chowk (28.4013, 77.0449), thence moving towards South-East direction along with the Gurgaon-Sohna Road and afterwards moving South-East direction along with Northern boundary of Village Badshahpur upto the point (28.3966, 77.0518) near Hanuman Mandir, thence moving towards along with revenue estate of Village Badshahpur upto the point (28.3835, 77.0666) near IREO Corridors Tower A-9, where it meets the revenue estate of Villages Dhumaspur and Village Badshahpur, thence moving towards South-East direction along with the revenue estate of Village boundary Badshahpur upto the point Bhoop Nagar Colony (28.3744, 77.0757) where it meets the revenue estate of boundary villages Dhumaspur and Badshahpur, thence moving towards western direction along with the Southern boundary of revenue estate village Badshahpur, Noorpur

Jharsa upto the point (28.3748, 77.0306) where it meets the revenue boundary of Villages Palra, Noorpur Jharsa and Village Aklampur, then moving towards North-East direction along with the western boundary of Village Noorpur Jharsa and Northern boundary of Village Palra upto the point (28.3897, 77.0209), then moving towards North-East direction upto the point (28.3945, 77.0208) near GPL EDEN Heights, then moving towards West direction upto the point (28.3946, 77.01465) thence moving towards North-East on sector dividing road of Sector-75/70 upto the point (28.4009, 77.0162), thence moving along with SPR towards East upto the starting point (28.4013, 77.0449) which is Vatika Chowk, This ward includes Village Badshahpur, Ramgarh ki Dhani, Noorpur, Sector-67, 68, 69 & 70 etc.

**Ward No. 19:** Starting point from South-Western corner of revenue estate of village Kadarapur (28.3788, 77.0838) which meets at the Constituency boundary of Badshahpur - Sohna, thence moving along with South-western boundary of revenue estate of village Kadarapur, thence moving towards south-east Direction which meets at the MCG boundary (28.3667, 77.1169), thence moving towards South-Western boundary of revenue estate of Village Bhondsi and passing the NH-248 Sohna-Gurugram Road till the tri-junction of revenue estate of Village Bhondsi, Teekli & Ghamroj, thence moving towards North-East direction along with the revenue estate boundary of Village Bhondsi upto the point (28.3692, 77.0451), thence moving towards North-East direction along with the revenue estate of Village Badshahpur as well as Bhondsi Village upto the point Bhoop Nagar Colony (28.3744, 77.07579) where it meets the revenue estate of boundary villages Dhumaspur & Badshahpur, afterwards moving along with the revenue boundary of Village Bhondsi upto the starting point (28.3788, 77.0838). This ward includes Village Bhondsi, Mohan Nagar, Vatika Kunj, Maruti Kunj, Naya Gaon, Defense Colony, Shri Ram Colony, Rayan Colony, Shyam Kunj, Ekta Enclave, Mayur Enclave, Nirmala Enclave, Mohan Nagar, Shanti Kunj etc.

**Ward No. 20:** Starting point from South-west corner of revenue estate of village Kadarapur (28.3788, 77.0838) which meets of Constituency boundary of Badshahpur and Sohna thence moving towards North direction along with the eastern boundary of revenue estate of village Maidawas & Nangli Umarpur upto the point (28.4118, 77.0838) where it meets tri-junction of boundary of revenue estates of Villages Ghata, Tigra and Nangli Umarpur thence moving towards North-East direction along with the revenue estate of village boundary of Village Ghata upto the point (28.434, 77.1201) where it meets the tri-junction of revenue estates boundary of villages Ghata, Balola & Gwal Pahari, then moving towards North direction along with the Western boundary of village Gwal Pahari up to the point (28.4426, 77.1239) where it meets the Haryana and Delhi Border as well as revenue estate of Village boundary of Village Gwal Pahari and Village Haidarpur Viran, thence moving towards East direction along with the revenue estate of Villages Gwal Pahari, Balola upto the point (28.4106, 77.1733) near Gurugram-Faridabad Toll-Plaza, thence moving towards Southern direction along with the revenue estate of boundary of Villages Bandhwari, Behrampur & Kadarapur upto the Starting point (28.3788, 77.0838). This ward includes Kadarapur, Ullahwas, Behrampur, Bandhwari, Balola, Gwal Pahari, Ghata, Sector-58, 61, 62, Sector-55, Sushant Lok-II etc.

**Ward No. 21:** Starting point (28.4402, 77.0702) near Arihant Hospital, thence moving towards North-east Direction on sector dividing road of Sector-45/52, 44/52 upto the point (28.447310, 77.079475) Red Light near Ardee City, thence moving along with St. Thomas Marg thence move along with boundary of E-Block of Sushant Lok, thence moving towards north-east Direction and thence again approach towards St. Thomas Marg then move along with St. Thomas Marg in East Direction which meets to the boundary of DLF Phase-5 then move along with Southern boundary of DLF Phase-5 adjoin to the boundary of South Point Mall (28.4476, 77.1002) near Rapid Metro Sector-53-54 which meets the Golf-Course Road (Raghuvendra Marg) thence moving along with Raghuvendra Marg towards south-east Direction upto the point (28.4375, 77.1036) near Vatika Tower, thence moving towards North-East direction along with the revenue estate boundary of village Haiderpur Viran upto the point (28.4426, 77.1239) where it meets the Haryana and Delhi Border as well as revenue estate of Village boundary of Village Gwal Pahari and Village Haidarpur Viran, thence moving towards South-West direction along with the constituency boundary of Badshahpur and Sohna upto the point (28.4159, 77.0848) where it meets on SPR road, thence moving towards North-East direction along with revenue estate of Village boundary Tigra and southern boundary of Village Wazirabad upto the point (28.4305, 77.0711), thence moving towards North-East direction along with North-Eastern boundary of Indira Colony-I & II upto the starting point (28.4402, 77.0702). This ward includes Wazirabad, Ardee City, Sector-52, Sector-57, Sushant Lok-II, Sector-56, Sector-53, Sector-52A, Sector-54, Suncity, Sushant Lok - E Block, etc.

**Ward No. 22:** Starting point (28.4589, 77.0742) near HUDA City Centre thence moving towards on sector dividing road of Sector-29/27, Sector-29/28 (August Kranti Marg) towards north Direction upto the point (28.474097, 77.072120), thence moving towards east Direction along with Laburnum Condominium Society and afterwards east Direction then move along with north eastern boundary of DLF Phase-4 which meets to Ct. Hamilton Road upto the point (28.4682, 77.0862) thence moving towards along with Ct. Hamilton Road towards east Direction which meets to Golf Course Road upto to point (28.468, 77.0944) thence moving towards along with Golf Course Road upto the point (28.4663, 77.0948) from this point moving towards west Direction upto the point (28.4656, 77.0932) from this point move towards south-west Direction upto the point (28.4645, 77.0926) from



this point move towards south-east Direction which meets again at Golf Course Road upto the point (28.4632,77.0956) thence moving towards on East direction on Sunset Boulevard road upto the point (28.4642,77.1055) in front Shivanadar School thence moving towards South direction upto the point (28.4604, 77.1054) near the Aralias, thence moving towards East direction along with revenue estate of village boundary of Village Wazirabad upto the point (28.4632, 77.1164) where it meets revenue estate boundary of villages Chakkarpur and Wazirabad, thence moving towards Southern direction on Gurugram-Faridabad road upto the point (28.4426, 77.1239) where it meets the Haryana and Delhi Border as well as revenue estate of Village boundary of Village Gwal Pahari and Village Haidarpur Viran, thence moving towards North-West direction along with Southern revenue estate boundary of Village Wazirabad Direction upto the point (28.4375, 77.1036) near Vatika Tower, thence moving towards North direction on Golf-Course road upto the point South Point Mall (28.4476, 77.1002) near Rapid Metro Sector-53-54, thence moving towards Western direction alongwith boundary of DLF Phase-V upto the point (28.4499,77.0873) near Paras Hospital, thence moving towards North direction along with the boundary of SushantLok Phase-I upto the point (28.4612,77.0847) near Vyapar Kendra, thence moving towards West direction on sector dividing road Sector-43/27 upto the starting point. This ward includes Sushant Lok Phase-I Block-A & B, DLF Phase-IV, Sector-43, Sector-42, Sector-27, Harijan Colony Wazirabad, DLF Phase-V etc

**Ward No. 23:** Starting from the point (28.4787, 77.094) which connect to the Southern boundary of Village Sikanderpur Ghosi i.e. from behind Bristol Hotel, thence moving towards south – east direction on Gurugram – Faridabad Road in front of Qutub Plaza which meets at point 28.4725, 77.1028 then moving North-East directions alongwith Western boundary of Silver Oak Apartment upto Lane G-17 (28.4718, 77.1067) then moving North – East directions along Northern Boundary of DLF Phase-I upto the South- East corner of the Revenue Estate of Sikanderpur Ghosi (28.4711, 77.1136) then moving southwards along the Revenue Estate Boundary of Chakkarpur and Wazirabad (28.4632, 77.1164) where it meets Revenue Estate Boundaries of Village Chakkarpur and Wazirabad then moving West along the revenue Estate boundary of Village Wazirabad up to the point (28.4606, 77.1054) near Aralias, then moving North upto the point 28.4642, 77.1055 in front of Shiv Nadar School thence move Western direction on Sunset Boulevard Road upto the point 28.4632, 77.0956 its meets on Golf Course Road. Then moving North – West Directions upto the point 28.4645, 77.0926 thence move North-East upto the point 28.4663, 77.0933 and moving East which approaching again Golf Course Road (28.4663, 77.0948) then moving North on Golf Course Road upto the point 28.468, 77.0944, then moving towards to Galleria Market Road upto the point 46.82, 77.0862, then moving North-East directions along with Northern Boundary of DLF Phase-4 and Western Boundary of Maruti Vihar Colony upto the point 28.4777, 77.0816 which lies on the Revenue Estate of Village Sarhaul then moving Eastwards alongwith the Revenue Estate of Village Sikanderpur Ghosi which meets on the starting point 28.4787, 77.094. This ward includes Saraswati Vihar Colony, Maruti Vihar, Chakkarpur Village, Sector-28, DLF City Phase-I, Aravali Hills Chakkarpur etc.

**Ward No. 24:** Starting from point (28.4589, 77.0742) near HUDA City Centre, thence moving towards east along with sector dividing road of Sector-43/27 up to the point 28.4612, 77.0847, thence moving towards south-east direction along with the boundary of SushantLok Phase-I up to the point (28.4499,77.0873) near Paras Hospital, then moving south-west boundary of block- E of SushantLok phase-I up to the point 28.4485, 77.083, thence moving westward along with St. Thomas Marg up to point (28.4473,77.0794) Red Light near Ardee City, afterwards in continuing on sector dividing road of sector 44/52 and 45/52 up to point Artemis hospital red light (28.437, 77.0673), thence moving west north direction along sector dividing road of sector 45/46 up to point 28.4401, 77.0632, then moving northwards along with north-eastern boundary of the greenwood city up to point 28.4501, 77.0642, then move north-east direction along with Arya Samaj Marg up to point (28.4568, 77.0704), thence moving south-west direction with the Constituency boundary of Gurugram and Badshahpur upto point (28.4598, 77.0495) near Unitech Signature Tower-II and then north-east direction along NH-48 up to point 28.4793, 77.0707, thence moving eastward and passing the behind Delta Square building and proceeding along M.G. road from the point (28.4786, 77.0739) and thence moving from behind the Beverly Park-I and thence approaching to MG road upto the point (28.479, 77.0788), thence moving towards south-East direction upto the point (28.4777,77.0816) which connects on the Southern boundary of revenue estate of Sikkanderpur Ghosi village and Sarhaul Village, thereafter towards move along with the boundary of Maruti Vihar colony up to point 28. 4743, 77.0789, thence moving towards westward Direction along with Laburnum Condominium Society up to point (28.4741, 77.0722), thence moving south direction along sector dividing road of Sector-29/28, 29/27, (August Kranti Marg) up to the starting point (28.4589, 77.0742) near HUDA City Centre. This ward includes Sushant Lok Phase-1, Sector-44, Kanhai Village, Sector-45, Sector-29, ESSEL Towers, Beverly Park, Saini khera, Silokhara, Moti Vihar, Sector-30, South City-1, Vijay Vihar, Jalvayu Vihar etc.

**Ward No. 25:** Starting from point 28.4793, 77.0702, which lies on NH-8 (Sector 17-18 dividing road), then moving towards south with NH-8 upto point 28.4598, 77.0495 near Unitech Signature Tower-II, then moving towards West-North side upto the point 28.4633, 77.0436 (Indradhanush Pre-school), then moving towards Northern-Western boundary of Patel Nagar colony and Police Line boundary upto Maharaja Agrasen Chowk (28.4631, 77.0329), then moving north side towards Bus-Stand Road upto the point Mahatama Jyotiba Phulle Chowk (28.4707, 77.0343), then moving towards Eastern-Southern direction on Sector-12 road upto the point 28.4684, 77.0377 in front of Chaupal Hotel, then moving towards North-East along Old Delhi Road up till the point 28.4891, 77.0559, then moving Eastern side along Sector 17-18 dividing road upto the starting point i.e. 28.4793, 77.0702. This ward includes Village Sukhrali, Sector-17, Air Force Station, MDI, IDC, Sector-14, Canal Colony, Old DLF, Chander Nagar, Sector 16, Anamika Enclave, Police Line, HVPNL Colony, Sector-12A, Prem Nagar-II etc.

**Ward No. 26:** Starting from point 28.4815, 77.0495, which is Lt. Atul Kataria Chowk, then moving towards South-Western boundary along Old Delhi Road upto the point 28.4684, 77.0377 in front of Chaupal Hotel, then moving towards Northern boundary of Prem Nagar-II along Sector-12 road upto the point Mahatama Jyotiba Phulle Chowk (28.4707, 77.0343) then moving towards Southward along Bus Stand Road upto the point 28.467, 77.0338 (Haryana Roadways Workshop), then moving along the Northern-Western boundary of Mianwali Colony till the point 28.4684, 77.0272, then moving North-East along with Sector-12A Road up till the point 28.4789, 77.0324 near Sheetla Mata Mandir, then moving West-North along Sheetla Mata Road along Sheetla Colony Block-A & B upto CRPF Camp Chowk (28.4786, 77.0354), then moving Eastern side along the Sheetla Mata Road upto the starting point i.e. 28.4815, 77.0495. This ward includes Sanjay Gram, Rajeev Nagar, Rajeev Nagar West, Acharya Puri, Sector-12A, Sheetla Colony Block-A & B etc.

**Ward No. 27:** Starting point from Rajiv Chowk (28.4456, 77.0336), then moving towards NH-48 upto the point 28.448, 77.0247 (NEXA Showroom), then moving along the North-Eastern boundary of Shanti Nagar & Shivaji Nagar Colony up till the point 28.454, 77.0299 in front of office of Commissioner of Police, then moving along the Old Railway Road upto the point 28.4623, 77.0237 (i.e. Shiv Murti Chowk), then moving North along the boundary of Indrapuri Colony upto the point 28.4656, 77.0288, then moving towards Western side along the New Railway Road upto point 28.4684, 77.0272, then moving along the Northern-Western boundary of Mianwali Colony upto the point 28.467, 77.0338 (Haryana Roadways Workshop), then moving towards South on Bus-stand Road upto Maharaja Agrasen Chowk (28.4631, 77.0329), then moving along the boundary of Patel Nagar colony upto the point 28.4609, 77.0417 (Indradhanush Pre-school), then moving towards Southern on Jharsa Bandh up till point 28.4515, 77.0309 (Near New PWD Rest House), then moving towards Southern on Sohna Road, which is the starting point i.e. Rajiv Chowk (28.4456, 77.0336). This ward includes Civil Lines, Friends Colony, Baraf Khana, Roshanpura, Gopal Nagar-Adarsh Nagar-Lajpat Nagar, Indra puri, Jacobpura, Jacobpura West, Patel Nagar, Mini Secretariat etc.

**Ward No. 28:** Starting point from Pataudi Road 28.4518, 77.0066 near Rotary Club Blood Bank thence moving North-East direction alongwith constituency boundary of Gurugram and Badshahpur and Shiv Nagar/Amar Colony up to the point 28.4544, 77.0136 where the point meets on Pataudi Road Police Chowki, thence moving South-East direction along Northern Boundary of Heera Nagar/Gandhi Nagar upto the point 28.4505, 77.0178 (D.A.V. Sr. Sec. School) thence moving North-East direction on the Khandsa Raod upto the point 28.4531, 77.0203 near S.D. Boys Sr. Sec. School, thence moving Eastward along Om Nagar road upto the point 28.4524, 77.0264 which is the meeting point of Shivaji Nagar Colony and Shanti Nagar Colony, thence moving Southward along the Beriwal Bag Road which passing the NH-48 upto the point 28.4431, 77.0216 thence moving South-West along the southern boundary of Rajeev Colony upto the point 28.4441, 77.0171, thence moving Westward along the Northern boundary of Hari Nagar and Shakti Park upto the point 28.4487, 77.007, thence moving North-East direction along the Western boundary of Gandhi Nagar Colony upto the Starting point 28.4518, 77.0066 near Rotary Club Blood Bank. This ward includes Rajeev Colony, Shanti Nagar, Om Nagar, Raj Nagar, Anaj Mandi, Shivji Park, Gandhi Nagar, Shiv Nagar, Heera Nagar, Amar Colony etc.

**Ward No. 29:** Starting from 28.457, 77.0079 on the Basai Road i.e. Enkay Factory, then moving towards along with the Western-Northern boundary of Feroz Gandhi Colony-I, Baldev Nagar, Manohar Nagar, Veer Nagar, Nai Abadi upto the point 28.4569, 77.0208 near Sethi Hospital, then moving North-Eastern side on Basai Road towards Bhuteshwar Mandir Chowk and moving along the outer boundary of Shivaji Nagar Colony upto the point 28.4531, 77.0203 (S. D. Boys Sr. Sec. School), then moving towards Southern side on Khandsa Road upto the point 28.4505, 77.0178 (DAV Sr. Sec. School), then moving towards West along Northern boundary of Heera Nagar-Gandhi Nagar upto point 28.4544, 77.0136, where the points meets on Pataudi Road Police Chowki, then moving along the Northern-Western boundary of Amar Colony, which is the starting point (28.457, 77.0079). This ward includes Nai Abadi, Veer Nagar, Manohar Nagar, Baldev Nagar, Feroz Gandhi Colony-I, Auto Market, Amar Colony (Part), Shakti Nagar, Laxmi Garden, Aath Marla and Shivaji Nagar etc.

**Ward No. 30:** Starting from point 28.4672, 77.0209, which is New Colony More, then moving towards East-South direction on Old Railway Road (28.4651, 77.0219 near Prem Mandir) along with the Eastern boundary of Nehru lane, Vijay Park, Partap Nagar, upto point 28.4623, 77.0186 near Gali No. 1 Madanpuri, then moving along the North-Eastern boundary of Arjun Nagar, Ram Nagar on Basai Road upto the point 28.4569, 77.0208 near Sethi Hospital, then moving towards Southern boundary of Arjun Nagar, Madanpuri upto the point 28.4604, 77.0118, then moving towards Eastern direction on Madanpuri Road upto Gali No. 7 of Jyoti Park (28.4612, 77.0138), then moving towards West-North direction along the boundary of Jyoti Park East upto the point 28.4644, 77.0144 (Geeta Bhawan Mandir), then moving towards South-Eastern boundary of New Colony along with Main Madanpuri Road upto the starting point (28.4672, 77.0209). This ward includes Ram Nagar, Arjun Nagar, Vijay Park, Nehru Lane, Madanpuri, Jyoti Park East etc.

**Ward No. 31:** Starting from point 28.4808, 77.0146 (Chintpurni Mata Mandir Chowk), then moving North-East direction upto the point 28.4765, 77.0177, afterwards moving Southwards along the Northern-Eastern boundary of Dayanand Colony on Sector-5 road upto the point 28.4763, 77.0213, then moving Southwards along the habitation boundary of Gurgaon village upto the point Singha Chowk (28.4742, 77.0296), then moving Southwards along the Sector-12 Road upto the point 28.4684, 77.0272, then moving towards Eastern-Southern direction on New Railway Road upto the point 28.4656, 77.0288, then moving Southwards along the boundary of Indra puri Colony upto the point 28.4623, 77.0237 (i.e. Shiv Murti Chowk), then moving towards Southern direction on Old Railway Road along with the Eastern-Southern boundary of Prem Nagar-I, Nai Basti, Partap Nagar upto the point 28.4651, 77.0219 near Prem Mandir, then moving West-North direction on Old Railway Road upto the point 28.4672, 77.0209 (New Colony More), then moving along the Southern-Western boundary of Rattan Garden till the point 28.4699, 77.0195 near Aryan Hospital, then moving Northern direction on Old Railway Road upto the starting point 28.4808, 77.0146 (Chintpurni Mata Mandir Chowk). This ward includes Dayanand Colony, Ashok puri, Mahabir pura, Jawahar Nagar, Subhash Nagar, Prem Nagar-I, Nai Basti, Partap Nagar, Rattan Garden, Bhim Nagar etc.

**Ward No.32:** Starting from point 28.4737, 77.018, which is Sector 4/7 Chowk, then moving on the Eastern-Southern direction on Old Railway Road upto the point 28.4699, 77.0195 near Aryan Hospital, then moving towards Eastern-Southern boundary of Shivpuri Colony and Northern-Eastern boundary of New Colony up till Geeta Bhawan Mandir Road (28.4625, 77.0158), afterwards moving on Geeta Bhawan Road upto Geeta Bhawan Mandir (28.4644, 77.0144), then moving towards Southern-Western direction along the boundary of Jyoti Park East Colony upto point 28.4612, 77.0138, then moving towards Southern-Western direction along with the boundary of Jyoti Park West, Sector-7 Extn., Housing Board, Firoz Gandhi Colony-II upto point 28.4676, 77.0013 on sector dividing road of Sector-9/9A near ESI Hospital, thence moving in the West-North direction along with the Southern-Northern boundary of Surya Vihar Colony up till Sector-9 Chowk (28.469, 77.0055), then moving along the Sector 4/ 7 dividing road upto the starting point (28.4737, 77.018). This ward includes Sector-7, Shivpuri, New Colony, Krishna Colony, Jyoti Park, Sector-7 Extn., Housing Board Colony, Firoz Gandhi Colony-II, Surya Vihar etc.

**Ward No. 33:** Starting from point 28.4737, 77.018, which is Sector 4/7 Chowk, then moving in the South-West direction along Sector 4/7 dividing road upto Sector 9 Chowk (28.469, 77.0055), then moving towards Western-Northern direction on Sector-4/9 dividing road, which is southern boundary of Sector-4 & Laxman Vihar Phase-II upto point 28.4772, 77.0009 on intersected Railway Line, then moving Northern border of Laxman Vihar Colony along the Railway Line up till the point 28.4891, 77.0107, then moving towards South-East direction along the New Railway Road upto the starting point (28.4737, 77.018). This ward includes Laxman Vihar Phase-I, Laxman Vihar Phase-II, Sector-4, Cancon Enclave etc.

**Ward No.34:** Starting from point 28.39 of the Southern boundary of Surat Nagar Phase-I, then moving Northwards up till the point 28.3952, 77.0162 on the Railway line, then moving on the Southern boundary of revenue estate of village Sarai Allawardi and Pawla Khusrupur upto point 28.4992, 77.0014 on the N.P.R Road (Dwarka Express Way), then moving towards Eastern boundary of Village Daultabad along the NPR Road till the point where it meets the Tri-junction point (28.4857, 76.9921), of boundary of revenue estate of villages Gurugram-Dhanwapur-Tikampur, then moving North of the Dhanwapur-Bajghera Road till the point 28.4834, 76.9986 which then moves along the Southern boundary of Surat Nagar Phase-I up to the starting point (28.483, 77.0056). This ward includes Rajendra Park, Daultabad Industrial Area, Tek Chand Nagar, Surat Nagar Phase-I etc.

**Ward No. 35:** Starting from point 28.3952, 77.0162, thence moving Southward upto the point 28.483, 77.0056, thence moving North-West along the boundary of Surat Nagar Ph-1 upto the point 28.4865, 77.0025, thence moving South-West on the Dhanwapur road upto the point 28.4834, 76.9986 (Near Godrej Summit Colony), thence moving Westward along with Southern revenue estate boundary of Gurgaon Village upto the point 28.4857, 76.9921 where it meets tri-junction point of boundary of revenue estate of villages Gurgaon, Dhanwapur & Tikampur, thence moving

towards North along the NPR and along the Eastern boundary of Village Daultabad upto the point 28.4992,77.0014, thence moving towards East along the Southern boundary of revenue estate of Village Pawala Khusrupur and Sarai Allawardi upto the starting point 28.3952, 77.0162. This ward includes Bhimgarh Kheri Phase-1, 2, 3, Ashok Vihar, Ashok Vihar-II, Apna Enclave, Sector-5, Sector-6 (Part) etc.

**Ward No.36:** Starting from point 28.4815, 77.0495, which is Lt. Atul Kataria Chowk, thence moving towards South-West along Sheetla Mata road upto the point 28.4786, 77.0354 to CRPF Camp Chowk, thence moving North-West along the boundary of Sheetla Colony Block-A&B upto the point 28.4803,77.0272, thereafter East along Sheetla Mata Road upto the point 28.4789,77.0324, thence moving towards South along the habitation boundary of Gurgaon village upto the point 28.481,77.025, thence moving North-West on the Sheetla Mata road upto the point 28.4929,77.0199 in front of New Samrat Garden, thence moving South-West direction along Northern boundary of Bhimgarh Kheri, Ashok Vihar Ph-2 upto the point 28.4932,77.0144 on the Railway line, thence moving North-Eastward upto the point 28.4952,77.0162, thence moving South-East on constituency boundary of Gurgaon-Badshahpur along Sheetla Mata Raod upto the point 28.5021,77.0289 which is Krishna Chowk, thence from this point moving South along the Gaushala Road upto the point 28.4936,77.0316 where it meets tri-junction of the revenue estate of villages Gurgaon, Chauma and Carterpuri, thence moving North-East direction on the Southern boundary of Village Carterpuri & Chauma and then moving along the Northern boundary revenue estate Inayatpur upto the point 28.4937,77.0598 (Maruti Gate No. 02), thence moving Southward along Old-Delhi road upto the starting point 28.4815,77.0495 which is Lt. Atul Kataria Chowk. This ward includes Ashok Vihar Phase-III, Sheetla Colony, Gurgaon village and Amanpura etc.

VIKAS GUPTA,  
Commissioner and Secretary to Government Haryana,  
Urban Local Bodies Department.